



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—आश्विन 21, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2017

क्र. ई-5-876-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तेजस्वी एस. नायक, आयएस., कलेक्टर, जिला बड़वानी को दिनांक 20 से 25 सितम्बर 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री तेजस्वी एस. नायक, की अवकाश अवधि में श्री बी. कार्तिकेयन, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बड़वानी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस. नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री तेजस्वी एस. नायक द्वारा कलेक्टर, जिला बड़वानी का कार्यभार गृहण करने पर श्री बी. कार्तिकेयन, भाप्रसे उक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री तेजस्वी एस. नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस. नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. ई-1-249-2017-5-एक.—डॉ. मनोहर अगनानी, भाप्रसे (1993), वि.क.अ.सह-कमिशनर, सागर संभाग सागर की सेवाएं भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, भारत सरकार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पद पर पदस्थापना के लिये 05 वर्ष की अवधि हेतु सौंपी जाती हैं.

क्र. ई-1-249-2017-5-1 (ए).—इस विभाग के आदेश ई-1-249-2017-5-एक, दिनांक 22 सितम्बर 2017 द्वारा डॉ. मनोहर अगनानी, भाप्रसे (1993), वि.क.अ.सह-कमिशनर, सागर संभाग सागर की सेवाएं भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपे जाने के अनुक्रम में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, भाप्रसे (2003), अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक कमिशनर, सागर संभाग, सागर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्र. ई-5-671-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को दिनांक 4 से 13 अक्टूबर 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण का प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा परिवहन विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का प्रभार श्री अशोक शाह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण एवं संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा भाप्रसे एवं श्री अशोक शाह भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-924-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस., संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को दिनांक 13 से 22 नवम्बर 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-972-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष भार्गव, आयएएस., उपसचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण को दिनांक 16 से 28 अक्टूबर 2017 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 14, 15 एवं 29 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष भार्गव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष भार्गव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2017

क्र. ई-5-945-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एन. एस. परमार, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग, भोपाल को दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2017 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. परमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एन. एस. परमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. परमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. ई.-5-686-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फैज अहमद किदवई, आयएस., तत्कालीन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग पूल) को समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2017 द्वारा दिनांक 12 जून से 31 अगस्त 2017 तक, इक्यासी दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 12 जून से 29 अगस्त 2017 तक उन्नासी दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई.-5-989-आयएस-लीव-5-एक.—श्री आशीष सक्सेना, आयएस., कलेक्टर, जिला झाबुआ को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 अगस्त 2017 द्वारा दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक, पाँच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017

सूचना

क्र. एफ-3-183-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सलकनपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2)

में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत रेहटी, मध्यप्रदेश

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. एफ-3-183-2011-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण, में, नगरीय विकास एवं आवास की अधिसूचना क्रमांक-एफ-3-183-2011-बत्तीस दिनांक 22 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd September, 2017

NOTICE

No. F-3-183-2011-XXXII.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for, Salkanpur, 2021 under sub-section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Collector, District Sehore, Madhya Pradesh
2. Joint Director, Town & Country Planning Distt. Office Bhopal, Madhya Pradesh.
3. C. M. O. Municipal Panchayat, Rehti, Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
C. K. SADHAV, Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2017

फा क्र. 17(ई) 44-2013-इक्कीस-ब(एक) 3577-17.—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 34 एवं 37 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
"34.	सिवनी	श्री मनोज कुमार लड़िया, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, सिवनी
37.	श्योपुर	श्री मुंशी सिंह चंद्रावत, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्योपुर."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17(E)-44-2013-XXI-B (One) 3577-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government In consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this departments Notification F-No. B (1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 34 and 37 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
"34.	Seoni	Shri Manoj Kumar Ladhiya, IIIrd Additional Sessions Judge, Seoni
37.	Sheopur	Shri Munshi Singh Chandrawat, Special Judge, Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sheopur.

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब-(एक)-4257.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण को, उनके नाम के आगे उल्लिखित वर्तमान धारित पद की सेवा को आगे निरंतर न रखते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त करता है :—

1. श्री देव नारायण पाटिल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल.
2. श्री विनोद भारद्वाज, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.
3. श्री सुरेश रणदीवे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर.
4. श्री योगेश कुमार सोंगरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर.
5. श्री जयराम सिंह कटारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास.
6. श्री हरी शंकर वैश्य, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना.
7. श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.
8. कु. भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा.
9. श्री वृन्दावन लाल झा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर.
10. श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.
11. श्री राज कुमार भावे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़.
12. श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम.
13. श्री भागचंद मलैया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर.
14. श्री मोहम्मद यूसुफ मंसुरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर.
15. श्री भारत सिंह जामरा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल.
16. श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर.
17. श्री ओम प्रकाश शर्मा (जूनियर), अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.

18. श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.
19. श्री शिशिरकांत चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2017

फा. क्र. 1(सी)-3321, 4013-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला मुरैना के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अंतर्गत श्री उदय सिंह चौहान, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी.-600-87, दिनांक 26 जून 1987 को विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री उदय सिंह चौहान, अधिवक्ता की उक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्मतिथि दिनांक 14 फरवरी 1960 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री उदय सिंह चौहान, अधिवक्ता, मुरैना को ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

श्री उदय सिंह चौहान, विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता, मुरैना को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित किया जायेगा.

फा. क्र.-3294, 4032-इक्कीस-ब (दो)-2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 2298-इक्कीस-ब(दो)2016, दिनांक 25 जून 2016 के द्वारा श्री आनंद सोनी, अधिवक्ता, इंदौर की विशेष लोक अभियोजक के रूप में की गई नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से निरस्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal, the 3rd October 2017

ORDER

No. F-3-30-2011-XIII.—The Government of Madhya Pradesh, Department of Energy *Vide* Gazette Notification No. F-3-30-2011-XIII dated 1st October 2013 has established an authority, known as Grievances Redressal Authority for Maheshwar Hydro Electric Project Affected Persons (PAPs), with its 'Term' as two (2) year i. e. up to 30th September 2016. *Vide* Gazette notification dated 2nd November 2016, this 'Term' was extended for a period of one (1) year i.e. up to 30th September, 2017.

2. Now, the State Government, hereby, extends the 'Term' of the Grievances Redressal Authority further for a period of 1 year. i. e. up to 30th September 2018.

3. Dr. Anil Pare, Retired District & Session Judge, has been appointed as the Chairman of the Grievances Redressal Authority, *Vide* GoMP, Energy Department's order No. F-3-30-2011-XIII dated 15th October 2014, for a period up to 30th September 2016. *Vide* Gazette notification dated 2nd November 2016, the term of Dr. Anil Pare as Chairman, Grievances Redressal Authority was extended for a period of one (1) year i. e. up to 30th September 2017. Now, the term of Dr. Anil Pare, as Chairman, Grievances Redressal Authority is further extended for one (1) year period i. e. up to 30th September 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. DHARIWAL, Officer on Special Duty.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्र.-एफ-2(8)-06-43-बीस सूत्र.—मध्यप्रदेश (लोक अधिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 (क्रमांक 14 सन् 1991) की धारा 3 (क) (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु आगामी आदेश तक निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति गठित करती है :—

क्र. (1)	नाम (2)	निवास का पता (3)	पद का नाम (4)
1	श्री धीरसिंह तोमर	86, नेहरू कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर	सदस्य
2	श्री रमेश खटीक	मु. पो. निजामपुर, पो. मगरौनी, जिला शिवपुरी	सदस्य
3	श्री मनोज दुबे	गोपालदास मिल के पास, दुबे कॉलोनी, गुना	सदस्य
4	श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी	स्वराज एजेन्सी के पीछे मण्डी रोड, अशोकनगर	सदस्य
5	श्रीमती सावित्री सिंह	कलेक्ट्रेट के सामने, दतिया	सदस्य
6	श्री रविसेन जैन	पेच नं. 2, देव नगर कॉलोनी, भिण्ड	सदस्य
7	श्री केदार सिंह यादव	एच 929, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुरैना	सदस्य
8	श्री कैलाश गुप्ता	“भक्ति” हजारेस्वर कॉलोनी, शिवपुरी रोड, श्योपुर	सदस्य
9	डॉ. उमाशशि शर्मा	डॉ. ननलाल बेडिया मार्ग, यशवंत निवास, इन्दौर	सदस्य
10	श्री मुकाम सिंह मिश्रवाल	मु. घटबोरी पो. बाग तहसील, गंधवानी, धार	सदस्य
11	श्री कन्हैया लाल सिसोदिया	बस स्टेन्ड के पास निवाली, जिला बड़वानी	सदस्य
12	श्री सुरेन्द्र मोटापाला	मु. पो. मोटापाला तह. पेटलावद, जिला झाबुआ	सदस्य
13	श्री गोविन्द कपाड़िया	38, बी. टी. रोज, अलीराजपुर	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
14	श्री राजेन्द्र यादव	ग्राम अखापुर, तह. भीकनगांव, जिला खरगौन	सदस्य
15	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	कुण्डलेश्वर वार्ड, शनि मंदिर के पास, खण्डवा	सदस्य
16	श्री अतुल पटेल	ए-102, इन्दिरा कॉलोनी, बुरहानपुर	सदस्य
17	श्री लाल सिंह राणावत	गली नं.-1, चिकित्सालय मार्ग, नागदा उज्जैन	सदस्य
18	श्री महेन्द्र भटनागर	जूना बाजार, नीमच सिटी	सदस्य
19	श्री हुकुम मुकाती	ग्राम व पो. तिधरिया छोटा जिला देवास	सदस्य
20	श्री गिरिराज मण्डलोई	ग्राम व पो. पोलायकलां, जिला शाजापुर	सदस्य
21	श्री श्याम सिंह परिहार	ग्राम ढोढर तह. बडौद जिला आगर	सदस्य
22	श्री उपेन्द्र सिंह यादव	मुकाम व पो. आलोट, जिला मंदसौर	सदस्य
23	श्री निहालचंद मालवीय	ग्राम व पो. धारियाखेडी, जिला मंदसौर	सदस्य
24	श्रीमती भारती अग्रवाल	एल.आई.जी. 238, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	सदस्य
25	श्री राकेश सुराना	बड़ा बाजार, आष्टा, जिला सीहोर	सदस्य
26	श्री तरूवार सिंह	ग्राम सिमरिया पो. सिलवानी, जिला रायसेन	सदस्य
27	श्री राकेश जादौन	10, तारणतरण जैन पाठशाला, गंजबासौदा, विदिशा	सदस्य
28	श्री केदार "काका"	सदर बाजार, खुजनेर, जिला राजगढ़	सदस्य
29	श्री मधुकर राव हर्णे	हर्णे गली, वार्ड नं. 9, होशंगाबाद	सदस्य
30	श्री मनोहर लाल राठौर	खेड़ीपुरा स्कूल के पास वार्ड नं. 2, हरदा	सदस्य
31	श्री शिवप्रसाद राठौर	पूर्व विधायक कृष्णा नगर, बैतूल	सदस्य
32	श्री राजेन्द्र सिंह मुकलपुर	सागर यूनिवर्सिटी के पास पथरिया जाट, सागर	सदस्य
33	श्री रूपेश सेन	नरसिंह मोहल्ला जबेरा, जिला दमोह	सदस्य
34	श्री राजेश वर्मा	इलाहबाद बैंक के सामने, धाम मोहल्ला, पन्ना	सदस्य
35	श्री चन्द्रभान गौतम	विश्वनाथ कॉलोनी सौरा रोड, छतरपुर	सदस्य
36	श्री अजय यादव	पूर्व विधायक, ढोंगा रोड, टीकमगढ़	सदस्य
37	श्री कमलेश्वर सिंह	जिला सत्र न्यायालय के पास, रीवा	सदस्य
38	डॉ. देवेन्द्र त्रिपाठी	ग्राम पनवार, पो. अमरवाह, तह. गोपदबनास, सीधी	सदस्य
39	श्री विश्वामित्र पाठक	मु. पो. जियावन तह. देवसर, जिला सिंगरौली	सदस्य
40	श्रीमती निर्मला सोनी	दादा सुखेन्द्र स्टेडियम, जवाहर नगर, सतना	सदस्य
41	श्री कैलाश तिवारी	प्रेस कॉलोनी, कोतवाली के पास, शहडोल	सदस्य
42	श्री ओमप्रकाश द्विवेदी	वार्ड नं. 12, अनूपपुर बस्ती, अनूपपुर	सदस्य
43	श्री हरीश विश्वकर्मा	बस स्टेण्ड के पास, मानपुर तहसील, उमरिया	सदस्य
44	श्री जयसिंह मरावी	नर्मदा पुल के पार, हंसनगर, डिण्डोरी	सदस्य
45	श्री आशीष दुबे	2469, राईट टाउन, जबलपुर	सदस्य
46	श्री विजय शुक्ला	मु. गुदरी पो. संसारपुर, तह. बहोरबंद, कटनी	सदस्य
47	श्रीमती भागेश्वरी तुरकर	वार्ड 7, पवारी मोहल्ला, शिवमंदिर, कटंगी, बालाघाट	सदस्य
48	श्री ताराचंद बाबरिया	पूर्व विधायक, वार्ड 15 परासिया, जिला छिन्दवाड़ा	सदस्य
49	ठाकुर भूपेन्द्र सिंह	स्टेशन रोड गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर	सदस्य
50	श्री नरेश दिवाकर	पूर्व विधायक कमल निवास बारा पत्थर, सिवनी	सदस्य
51	श्री देवीसिंह सैयाम	रामदेवरी ग्राम झुलपुर, तह. नैनपुर, मंडला	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2017

फा. क्र.-1-1-2002-4007-2017-इक्कीस ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 11 सितम्बर 2017 को मान्य करते हुए श्री श्याम सुन्दर गर्ग, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना (म. प्र.) का त्याग-पत्र दिनांक 22 सितम्बर 2017 से स्वीकृत करता है.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2017

फा. क्र. 17 (ई)-17-2016-इक्कीस-ब-(एक) 3750-2017.—कॉमर्शियल कोर्ट, कॉमर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाईकोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का सं 4) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में उल्लिखित व्यक्तियों को उसके कालम (2) में उल्लिखित वाणिज्यिक न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

सारणी

स. क्र. (1)	जिला (2)	न्यायालय का नाम एवं पदनाम (3)
1	भोपाल	चौदहवें अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल
2	इन्दौर	बारहवें अपर जिला न्यायाधीश, इन्दौर
3	जबलपुर	तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, जबलपुर.

F. No. 17 (E)-17-2016-XXI-B (1)-3750-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the concurrence of Hon'ble the Acting Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints the persons mentioned in column (3) of the Table given below to be the Judges of the Commercial Courts of districts mentioned in column (2) thereof, namely:—

TABLE

S. No. (1)	District (2)	Name of the Officer and Designation (3)
1	Bhopal	XIVth Additional District Judge, Bhopal
2	Indore	XIIth Additional District Judge, Indore
3	Jabalpur	IIIrd Additional District Judge, Jabalpur

फा.क्र.17(ई) 83-03-इक्कीस-ब-(एक)-3587-2017.— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 29, 62, 89, 93, 97 एवं 105-बी तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्:—

सारणी

स. क्र. (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम (4)
“29.	धार	पंचम अपर सेशन न्यायाधीश, धार.	श्रीमती शुभ्रा सिंह, पंचम अपर सेशन न्यायाधीश, धार.
62.	सबलगढ़ मुरैना.	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़.	श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़.
89.	सिवनी	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, सिवनी.	श्री मनोज कुमार लडिया, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, सिवनी.
93.	शाजापुर	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, शाजापुर.	श्री दीपक कुमार पाण्डे, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, शाजापुर.
97.	श्योपुर	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्योपुर.	श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्योपुर.
105-बी.	नागदा उज्जैन	अपर सेशन न्यायाधीश, नागदा.	श्री विक्रम सिंह बुले, अपर सेशन न्यायाधीश, नागदा.”

F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B (One)-3587-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B-(1), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 29, 62, 89, 93, 97 and 105B and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
“29.	Dhar	Vth Additional Sessions Judge, Dhar.	Smt. Subhra Singh, Vth Additional Sessions Judge, Dhar.
62.	Sabalgarh Morena.	IIInd Additional Sessions Judge, Sabalgarh.	Shri Om Prakash Singh, Raghuvanshi, IIInd Additional Sessions Judge, Sabalgarh.

(1)	(2)	(3)	(4)
89.	Seoni	IIIrd Additional Sessions Judge, Seoni.	Shri Manoj Kumar Ladia, IIIrd Seoni Additional Sessions Judge, Seoni.
93.	Shajapur	IIIrd Additional Sessions Judge, Shajapur.	Shri Deepak Kumar Pandey, IIIrd Additional Sessions Judge, Shajapur.
97.	Sheopur	Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sheopur.	Shri Munshi Singh Chandrawat, Special Judge, Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sheopur.
105-B.	Nagda Ujjain	Additional Sessions Judge, Nagda.	Shri Vikram Singh Bule, Additinal Sessions Judge, Nagda.”

फा.क्र.17(ई) 83-03-इक्कीस-ब-(एक)-3587-017.— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 83-2003 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 29, 62, 89, 93, 97, 104, 104-ए, 105, 105-ए एवं 105-बी तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“29.	धार	पंचम अपर सेशन न्यायाधीश, धार.	सिविल जिला धार का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 30, 31 एवं 32 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
62.	सबलगढ़ मुरैना.	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़.	सबलगढ़ का विद्युत् क्षेत्र.
89.	सिवनी	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, सिवनी.	सिविल जिला सिवनी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 90 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
93.	शाजापुर	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, शाजापुर.	सिविल जिला शाजापुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 94, 95 एवं 96 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
97.	श्यापुर	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्यापुर.	सिविल जिला श्यापुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
104.	उज्जैन	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.	सिविल जिला उज्जैन के समस्त ग्रामीण विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 104- ए, 105, 105-ए एवं 105 बी के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
105	उज्जैन	अपर सेशन न्यायाधीश, खाचरौद	खाचरौद का विद्युत् क्षेत्र.
105-ए	महीदपुर उज्जैन.	अपर सेशन न्यायाधीश, महीदपुर	महीदपुर का विद्युत् क्षेत्र.
105-बी	नागदा उज्जैन	अपर सेशन न्यायाधीश, नागदा.	नागदा का विद्युत् क्षेत्र.”.

F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B (One)-3587-017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B-(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 29, 62, 89, 93, 97, 104, 104-A, 105, 105-A and 105-B and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“29.	Dhar	Vth Additional Sessions Judge, Dhar.	All Electricity area of Civil District Dhar (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 30, 31 & 32).
62	Sabalgarh Morena	IIInd Additional Sessions Judge, Sabalgarh.	Electricity area of Sabalgarh.
89	Seoni	IIIrd Additional Sessions Judge, Seoni	All Electricity area of Civil District Seoni (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 90).
93	Shajapur	IIIrd Additional Sessions Judge, Shajapur	All Electricity area of Civil District Shajapur (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 94, 95 & 96).
97	Sheopur	Special Judge, Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sheopur.	All Electricity area of Civil District Sheopur.
104	Ujjain	IIInd Additional Sessions Judge, Ujjain	All Electricity area of Civil District Ujjain (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 104-A, 105, 105-A & 105-B).
104-A	Ujjain	IXth Additional Sessions Judge, Ujjain.	All Urban electricity area of Civil District Ujjain.

(1)	(2)	(3)	(4)
105	Khachrod Ujjain	Additional Sessions Judge, Khachrod.	Electricity area of Civil District Khachrod.
105-A	Mahidpur Ujjain	Additional Sessions Judge, Mahidpur.	Electricity area of Civil District Mahidpur.
105-B	Nagda Ujjain	Additional Sessions Judge, Nagda.	Electricity area of Civil District Nagda.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2017

क्र. एफ. 12-99-2017-बी-1-दो.—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे जाने पर, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के निवारण के लिए और उससे निपटने के लिए, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर, पुलिस निरीक्षक रैंक के समस्त अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियाँ, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रदत्त करती है।

F.12-99-2017-B-1-two.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No 33 of 1989), the State Government upon considering it necessary and expedient so to do for the prevention of and for coping with the offences under the said Act, hereby confers the powers of arrest, investigation and prosecution of persons before any Special Court to all the officers of the rank of Police Inspector, within the State of Madhya Pradesh, with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक शर्मा, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-27-1-2009-ए-सोलह.—राज्य शासन, एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-27-1-09-ए-सोलह, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 को अधिक्रमित कर मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद् के गठन की कार्यप्रणाली एवं नियमन संबंधी नियमों का अनुसरण करते हुए निम्नानुसार मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद् का गठन करता है:—

(क) पदेन सदस्य

1. श्रम मंत्री
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

अध्यक्ष
सदस्य

- | | |
|--|------------|
| 3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल | सदस्य |
| 4. संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश जबलपुर | सदस्य |
| 5. आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल | सदस्य |
| 6. उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, जबलपुर | सदस्य |
| 7. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर. | सदस्य-सचिव |

(ख) मनोनीत सदस्य

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधि

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र

- | | |
|---|-------|
| 1. कार्यपालिक निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल अथवा अधिकृत प्रतिनिधि. | सदस्य |
| 2. कार्यपालिक निदेशक, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एन.टी.पी.सी.) विन्ध्य नगर, गुना अथवा अधिकृत प्रतिनिधि. | सदस्य |
| 3. कार्यपालिक निदेशक नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, विजय नगर, गुना अथवा अधिकृत प्रतिनिधि. | सदस्य |

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र

- | | |
|---|-------|
| 4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, भोपाल अथवा अधिकृत प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, रामपुर, जबलपुर अथवा अधिकृत प्रतिनिधि. | सदस्य |

(2) निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के प्रतिनिधि

- | | |
|---|-------|
| 6. श्री विपिन कुमार जैन, महासचिव, मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, ई 2/30, अरेरा कालोनी, भोपाल. | सदस्य |
| 7. श्री दीपक झा, सहायक सचिव, फेडरेशन ऑफ चेम्बर ऑफ कामर्स, एण्ड इण्डस्ट्रीज, उद्योग भवन 129/ए मालवीय नगर भोपाल. | सदस्य |
| 8. श्री सुरेश माहेश्वरी, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश टेक्सटाईल्स मिल्स एसोसियेशन, 56, साउथ तुकोगंज, स्ट्रीट नं. 1, इन्दौर. | सदस्य |
| 9. श्रीमती मीना पिम्पलापुरे, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश बीड़ी उद्योग संघ, श्री बाबूराव पिम्पलापुरे, मार्ग 1 सिविल लाईन्स, सागर-470001. | सदस्य |
| 10. श्री महेश मित्तल, ऑल इण्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, (एम.पी.एस.बी.) इण्डस्ट्रीयल स्टेट, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर. | सदस्य |
| 11. श्री राधाकिशन खेतान, मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज चेम्बर भवन, ग्वालियर. | सदस्य |
| 12. श्री हेमंत मेहतानी, अध्यक्ष, एशोसियेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज उद्योग भवन, इण्डस्ट्रीयल स्टेट, 96, पोलोग्राउण्ड इन्दौर. | सदस्य |
| 13. श्री तेजकुलपाल सिंह पाली, मंत्री, चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज 1-15, सेहगल टावर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी कोफेफिजा, भोपाल. | सदस्य |
| 14. श्री राजेश महेश्वरी, अध्यक्ष, जबलपुर चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज | सदस्य |

**(3) श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि
भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.)**

- | | | |
|-----|--|-------|
| 15. | श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, म. नं. 4/365, भारत अपार्टमेंट, गौतम नगर, चेतक पुल के पास, भोपाल. | सदस्य |
| 16. | श्री के. पी. सिंह, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, बी 664, ओरिएंट पेपर मिल, अमलाई, जिला शहडोल. | सदस्य |
| 17. | श्री गणेश मिश्रा, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, ठेगड़ी भवन, भारत माता चौक, (डिपो चौराहा) भदभदा रोड, भोपाल. | सदस्य |
| 18. | श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, बी-14, सेक्टर सी, राजनगर कॉलोनी, पोस्ट डोला, जिला अनूपपुर. | सदस्य |
| 19. | श्री सुल्तान सिंह शेखावत, कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ 249, शासकीय क्वार्टर बिरला ग्राम, नागदा, जिला उज्जैन. | सदस्य |

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)

- | | | |
|-----|---|-------|
| 20. | श्री आर. डी. त्रिपाठी, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश इंटक, एम.आई.जी. 57/3ए साकेत नगर भोपाल (म. प्र.). | सदस्य |
| 21. | श्री श्यामसुंदर यादव, महामंत्री, म. प्र. इंटक, श्रम शिविर 123 देवी अहिल्या मार्ग, इन्दौर (म. प्र.). | सदस्य |

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)

- | | | |
|-----|--|-------|
| 22. | श्री रूपसिंह चौहान, महासचिव, ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन, कांग्रेस (एटक) मध्यप्रदेश राज्य समिति शाकीर सदन 5 पटेल नगर लेबर कॉलोनी, भोपाल. | सदस्य |
|-----|--|-------|

हिन्द मजदूर सभा (म. प्र.)

- | | | |
|-----|--|-------|
| 23. | श्री हरिओम सूर्यवंशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हिन्द मजदूर सभा (म. प्र.) 445, पाटनीपुरा, जिला इन्दौर (म. प्र.). | सदस्य |
|-----|--|-------|

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू)

- | | | |
|-----|--|-------|
| 24. | श्री राम विलास गोस्वामी, अध्यक्ष, सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) म. प्र. राज्य समिति सीटू कार्यालय डिलाईट टाकीज के पीछे, लश्कर ग्वालियर. | सदस्य |
|-----|--|-------|

श्रमजीवी पत्रकार अथवा गैर पत्रकार संघ

- | | | |
|-----|---|-------|
| 25. | श्री रामभुवन सिंह कुशवाह, पत्रकार 100/46, शिवाजी नगर, भोपाल | सदस्य |
|-----|---|-------|

असंगठित ग्रामीण श्रमिक संगठन

- | | | |
|-----|--|-------|
| 26. | श्री धर्मदास शुक्ला, अ. भा. असंगठित सहप्रभारी, भारतीय मजदूर संघ, ठेगड़ी भवन, भारत माता चौक (डिपो चौराहा) भदभदा रोड, भोपाल. | सदस्य |
| 27. | श्री सुखलाल वर्मन, अध्यक्ष, असंगठित भारतीय मजदूर संघ, 534 छोटा जैन मंदिर के पास, गढ़ा बाजार, जबलपुर (म. प्र.). | सदस्य |

असंबद्ध संगठन

- | | | |
|-----|--|-------|
| 28. | श्री धनीराम कौशिक, प्रदेश उपाध्यक्ष, असंबद्ध संगठन, भारतीय मजदूर संघ, 584 सेक्टर 9 बी, साकेत नगर, भोपाल. | सदस्य |
|-----|--|-------|

प्रदेश के एक लोकसभा सदस्य

29. श्री आलोक संजर, संसद सदस्य, ई-8/83, शिवाकुंज, रेल्वे कॉलोनी, भोपाल सदस्य

अध्यक्ष द्वारा नामांकित चार सदस्य

30. डा. राधा राठौर, सामाजिक कार्यकर्ता, पंतजलि एयरपोर्ट रोड, म. प्र. सदस्य
31. श्री विनोद रिछारिया, 3, कपड़ा मिल परिसर, चांदवड, भोपाल-402024 सदस्य
32. डॉ. राजेन्द्र सिंह सिकरवार, 343, अरेरा कालोनी, भोपाल 32 श्री जगत नारायण सिंह पथिक बिहार सिंगरौली, म. प्र. सदस्य
33. श्री जगत नारायण सिंह, पथिक बिहार, सिंगरौली. म. प्र. सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वाष्णीय, प्रमुख सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्र. एफ 8-2-2016-इकतालीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलेवरी) नियम, 2017 परिभाषाएं (1) (छ) में उल्लेखित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, भोपाल को संचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा प्रदाय, मध्यप्रदेश, घोषित किया जाता है।

2. संचालक, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय, मध्यप्रदेश, ऐसी शक्तियां तथा कृत्य का अनुसरण करेगा, जो मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलेवरी) नियम, 2017 के नियम 6 में प्रमाणित हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

आदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-1-4-17-रा.स.-यू.ए.-1-1219.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्र. 4 सन् 2009) की धारा 15 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, एतद्वारा, डॉ. एस. के. राव, (पूर्व निदेशक, रिसर्च सर्विसेस, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय) हैदराबाद-500032 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि के लिए राजमाता विजयाराजे, सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-01 के अनुसार शासित होंगी।

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 02-अ-82-16-17-9420 सागर, दिनांक 6 सितम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि को, राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर म.प्र. को बीना-कटनी रेलखण्ड के समपार क्रमांक-307-बी (सागर-फाटक) के एवज में आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बीना-कटनी रेलखण्ड के समपार क्रमांक-307-बी (सागर-फाटक) के एवज में आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. निर्माण कार्य हेतु
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : बीना
 3. ग्राम : बीना इटावा
 4. पट.ह.नं.- : 51
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.826 है.

:: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	अर्जित परिसंपत्तियों का अनुमानित क्षेत्र	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुह. शफीक पिता हाफिज मुह. अमीन साकिन देह, अजीज अहमद पिता खलील अहमद, सबीना पुत्री. खलील अहमद साकिन एम.ई.एस.कालोनी, जबलपुर, श्रीमति लैला पत्नि मोहम्मद याकूद पुत्र खलील अहमद साकिन अटाला उ.प्र., मुवीन अहमद, शाहिद अहमद, चीना उर्फ फकरे, नूरा उर्फ नूर, आलम, मुन्ना पिता नईम, मोहम्मद जरीना बेबी, महजबीन, मुमता, अरबीना पिता मोहम्मद नईम, मेहरजुननिशा बेबी मोहम्मद नईम, हसीन अहमद, सायमा पिता मुफ्तीद अहमद निवासी इटावा, नूर सैयदबी बेबी मुफ्तीद, अहमद, अरसद, अलीराजा, सन्नो पिता अहमद रजा साकिन कानपुर	भूमिस्वामी	408/1	52.052	0.151	आर.सी.सी. की 2 दुकाने एवं एक गो-डाउन	1200 वर्गफुट	
		भूमिस्वामी	412/1	0.491	0.101	आर.सी.सी. की 5 दुकान	700 वर्गफुट	
						नगर पालिका बीना द्वारा निर्मित टीन शेड एवं पक्के चबूतरे	2160 वर्गफुट	
2	गुरुकृपा इन्टर प्राइजेज बाहुबलि कालोनी मोतीनगर वार्ड सागर द्वारा कुलदीप सिंह पिता सुरजीत सिंह भाटिया, श्रीलाल पिता सुन्दरलाल जैन साकिन चन्द्रशेखर वार्ड सागर, मुकेश कुमार पिता सुखदीप प्रसाद जैन साकिन मोतीनगर वार्ड बीना	भूमिस्वामी	412/2	0.42	0.222	निरंक	निरंक	
3	राहुल पिता हरिसिंह राय साकिन शिवाजी वार्ड बीना	भूमिस्वामी	412/4/6	0.057	0.057 (6200 वर्गफुट)	आर.सी.सी. की 9 दुकाने	1300 वर्गफुट	
						आर.सी.सी. नींव	300 वर्गफुट	
4	देशराज पिता भागीरथ बिलगैया साकिन जवाहरवार्ड बीना	भूमिस्वामी	405/1/1	0.353	0.044	निरंक	निरंक	
5	प्रभात कुमार, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार पिता विष्णुप्रसाद व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना	भूमिस्वामी	408/5	0.092	0.050	निरंक	निरंक	

6	श्रीमति कांता पत्नि प्रभात कुमार व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना	भूमिस्वामी	408/18	0.018	0.018	निरंक	निरंक	
		भूमिस्वामी	408/19	0.014	0.005	निरंक	निरंक	
		भूमिस्वामी	408/20	0.011	0.011	निरंक	निरंक	
		भूमिस्वामी	408/21	0.011	0.011	निरंक	निरंक	
7	श्रीमति शारदा पत्नि विनोद कुमार व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना	भूमिस्वामी	408/14	0.008	0.008	निरंक	निरंक	
		भूमिस्वामी	408/15	0.013	0.011	निरंक	निरंक	
		भूमिस्वामी	408/16	0.008	0.005	निरंक	निरंक	
8	लक्ष्मीबाई वेवा हरिसिंह, राहुल, राजीव, पूजा, नदिनी पिता हरिसिंह राय निवासी शिवाजी वार्ड बीना	भूमिस्वामी	408/33	0.011	0.006	निरंक	निरंक	
9	मुह. शफीक पिता हाफिज महम्मद अमीन साकिन देह, अजीज अहमद पिता खलील अहमद, सबीना पुत्री खलील अहमद, एम.ई.एस. कालोनी जबलपुर, लैला पति मुह. याकूब पुत्री खलील अहमद साकिन अटाला उ.प्र., मुबीन अहमद साहिद अहमद, चीना उर्फ इश्तखार, कल्लू उर्फ फकरे, नूरा उर्फ नूर आलम, मुन्ना पिता नईम, मोहम्मद जरीना बेबी महजबीन, मुमताज, अरबीना पिता मुह. नईम, हसीन अहमद, सायमा पिता मुफदीद अहमद, नूर सयैदी बेवा मुफदीद अहमद, अरसद अलीराजा, सन्नो पिता अहमद रजा साकिन कानपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/23	1.071	0.113	आर.आर.सी. निर्मित 20 दुकाने	3875 वर्गफुट	
						एक कदम का वृक्ष		
						एक द्यूबबेल		
10	राहुल पिता हरीसींग राय निवासी शिववार्ड बीना, मुहम्मद नफीस, मुहम्मद माहिर पिता सली साकिन वीरसावरकर वार्ड बीना	भूमिस्वामी	412/4/1	0.340	0.013	निरंक	निरंक	
योग:-				4.973	0.826			

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बीना एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी। सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प्र. क्र. ए-3671

आगर-मालवा दिनांक 22 सितम्बर 2017

अंतर्गत धारा - 11 भूमि अजन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - लटुरीसमट		तहसील - नलखेड़ा	
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	147.497	132.467
	योग	147.497	132.467

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
1	हरिवल्लभ नारायण पुरुषोत्तम सत्यानारायण पिता भंवरलाल भाग 4/6 समान भाग मनोज कुमार संदीप कुमार प्रमोद कुमार नाबा पिता राधेश्याम संतोष बाई पपीबाई मुन्नी बाई रीना बाई नाबा पिता राधेश्याम ना बा सर माता तारा बाई वि. राधेश्याम भाग 1/6 सम भाग लीला बाई पुत्री भंवरलाल भाग 1/6 जाति ब्राह्मण पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	67	0.251	0.251
	योग		0.251	0.251
2	हिन्दु सिंह पिता देवल्या जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	68 154/2	0.095	0.095
	योग		0.095	0.095
3	राजेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर	69/2	0.052	0.052
	योग		0.052	0.052

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
4	बहादुरसिंह पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	65	0.094	0.015
	योग		0.094	0.015
5	काशीराम पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	70/1/1	0.021	0.018
6	सुरेश पिता केशर सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	70/1/2	0.021	0.018
7	कमल सिंह पिता मान सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	70/1/3	0.021	0.018
8	चंदर सिंह पिता नारायण सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	70/2	0.052	0.052
	योग		0.115	0.106
9	हिन्दु सिंह पिता पीरुसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	71	0.993	0.400
	योग		0.993	0.400
10	हिन्दु सिंह पिता पीरुसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	72 73	0.376	0.180
	योग		0.376	0.180
11	अमर सिंह पिता दरियाव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	83/1	0.052	0.052
	बिहारीलाल पिता दरियाव जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	83/2	0.053	0.053
	योग		0.105	0.105
12	भैरूलाल बल्देव सिंह पुत्र भंवरलाल भा. 25 पैसा लीलाबाई, चंदरबाई पुत्री कंवरलाल भा. 13 पैसा गोकलसिंह, पारस, इंदरसिंह, राधेश्याम पिता अनार राजलबाई पिता अनार हिस्सा 28 पैसा, सिद्धनाथ पिता हजारीलाल शांतिबाई छीताबाई मानुबाई पिता हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल हि.36 पै. जाति गुर्जर स.भा. भूमि स्वामी 25 पै. सिद्धनाथ पु. हजारीलाल सुरजबाई छीताबाई मानुबाई पु. हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल भा. 25 पै. भूमि स्वामी सा.भा. मांग्रीलाल मानसिंह पु. उमराव हि. 14 पै. हिन्दुसिंह पिता पीरुसिंह हि. 8	85	0.418	0.418
	योग		0.418	0.418

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
13	भैरूलाल बल्देव सिंह पुत्र भंवरलाल भा. 25 पैसा लीलाबाई, चंदरबाई पुत्री कंवरलाल भा. 13 पैसा गोकलसिंह, पारस, इंदरसिंह, राधेश्याम पिता अनार राजलबाई पित अनार हिस्सा 28 पैसा, सिद्धनाथ पिता हजारीलाल शांतिबाई छीताबाई मानुबाई पिता हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल हि.36 पै. जाति गुर्जर स.भा. भूमि स्वामी 25 पै. सिद्धनाथ पु. हजारीलाल सुरजबाई छीताबाई मानुबाई पु. हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल भा. 25 पै. भूमि स्वामी सा.भा. मांगीलाल मानसिंह पु. उमराव हि. 14 पै. हिन्दुसिंह पिता पीरुसिंह हि. 8	85/610 85/611	0.261	0.261
	योग		0.261	0.261
14	भैरूलाल बल्देव सिंह पुत्र भंवरलाल भा. 25 पैसा लीलाबाई, चंदरबाई पुत्री कंवरलाल भा. 13 पैसा गोकलसिंह, पारस, इंदरसिंह, राधेश्याम पिता अनार राजलबाई पित अनार हिस्सा 28 पैसा, सिद्धनाथ पिता हजारीलाल शांतिबाई छीताबाई मानुबाई पिता हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल हि.36 पै. जाति गुर्जर स.भा. भूमि स्वामी 25 पै. सिद्धनाथ पु. हजारीलाल सुरजबाई छीताबाई मानुबाई पु. हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल भा. 25 पै. भूमि स्वामी सा.भा. मांगीलाल मानसिंह पु. उमराव हि. 14 पै. हिन्दुसिंह पिता पीरुसिंह हि. 8	86/1 शा.न. 85/608	0.209	0.209
	योग		0.209	0.209
15	शकुबाई पारीबाई पु. भारत देव सिंह आत्माराम व्यस्क जालु पिता भारत भा 1/2 सं भाग पि. देवी गुर्जर मांगीलाल गंगाराम तोलाराम पिता बक्सराम शान्तीबाई पुत्री बक्तराम भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सा भाग पि. देरीगुजर बसराम पु. भारत सर पि. देवा हि 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	86/2	0.157	0.157
	योग		0.157	0.157
16	कंचन बाई वि. रणजीत सिंह देवबाई रामकुवर बाई पुत्रीया रणजीत सिंह स भा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	86/3	0.073	0.073
	योग		0.073	0.073

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
17	अमर सिंह पु. दरियाव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	86/4	0.031	0.031
	योग		0.031	0.031
18	बिहारीलाल पु. दरियाव जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	86/5	0.021	0.021
	योग		0.021	0.021
19	शकुबाई पारीबाई पु. भारत देव सिंह आत्माराम व्यस्क जालु पिता भारत भा 1/2 सं भाग पि. देवी गुर्जर मांगीलाल गंगाराम तोलाराम पिता बक्सराम शान्तीबाई पुत्री बक्तराम भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सा भाग पि देरीगुजर बसराम पु. भारत सर पि. देवा हि 1/2 जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	87	0.021	0.021
	योग		0.021	0.212
20	शकुबाई पारीबाई पु. भारत देव सिंह आत्माराम व्यस्क जालु पिता भारत भा 1/2 सं भाग पि. देवी गुर्जर मांगीलाल गंगाराम तोलाराम पिता बक्सराम शान्तीबाई पुत्री बक्तराम भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सा भाग पि देरीगुजर बसराम पु. भारत सर पि. देवा हि 1/2 जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	88/1	0.199	0.199
	योग		0.199	0.199
21	शकुबाई पारीबाई पु. भारत देव सिंह आत्माराम व्यस्क जालु पिता भारत भा 1/2 सं भाग पि. देवी गुर्जर मांगीलाल गंगाराम तोलाराम पिता बक्सराम शान्तीबाई पुत्री बक्तराम भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सा भाग पि देरीगुजर बसराम पु. भारत सर पि. देवा हि 1/2 जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	88/2	0.199	0.199
	योग		0.199	0.199
22	कंचन बाई वि. रणजीत सिंह देवबाई रामकुवर बाई पुत्रीया रणजीत सिंह स भा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	89	0.167	0.167
	योग		0.167	0.167
23	गोपीलाल पिता परताब जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	90/मीन1	0.300	0.300
24	लीलाबाई चन्दरबाई पुत्रियां परताब जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	90/2	0.014	0.014

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
	योग		0.314	0.314
25	बिहारलाल पिता दरियाव जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	92/1	0.049	0.011
26	हिन्दु सिंह पिता बंशीलाल चंदर बाई पिता बंशीलाल गंगाबाई वि. बंशीलाल जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	92/2	0.049	0.017
27	अमर सिंह पिता दरियाव जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	92/3	0.048	0.018
	योग		0.146	0.046
28	सौरमबाई पति राजाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	94 96/1	0.449	0.449
	योग		0.449	0.449
29	राजाराम पिता भवरलाल जाति गुर्जर	95	0.209	0.209
	योग		0.209	0.209
30	भागीरथ पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	96/2	0.021	0.021
	योग		0.021	0.021
31	भैरूलाल बल्देव सिंह पुत्र भवरलाल भा. 25 पैसा लीलाबाई, चंदरबाई पुत्री कंवरलाल भा. 13 पैसा गोकलसिंह, पारस, इंदरसिंह, राधेश्याम पिता अनार राजलबाई पित अनार हिस्सा 28 पैसा, सिद्धनाथ पिता हजारीलाल शांतिबाई छीताबाई मानुबाई पिता हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल हि. 34 पैसा जाति गुर्जर स.भा. भूमि स्वामी 25 पै सिद्धनाथ पु. हजारीलाल सुरजबाई छीताबाई मानु मानुबाई पु. हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल भा. 25 पै भूमि स्वामी स.भा. मांगीलाल मानसिंह पु. उमराव हि. 14 पै हिन्दूसिंह पिता पीरूसिंह हि. 8 पै सौरमबाई पति राजाराम जाति गुर्जर भूमि स्वामी	96/3	0.125	0.125
	योग		0.125	0.125
32	गिलासबाई वि. कैलाश जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	96/612/2	0.010	0.010
	योग		0.010	0.010
33	सीमा, अकिलाबाई पिता काशीराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	101/1	0.084	0.050
34	भागीरथ पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	101/2	0.083	0.050
	योग		0.167	0.100

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
35	चंदरसिंह पिता नानुसिंह निर्भयसिंह पिता चंदरसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	120/1	0.446	0.446
36	मांगु पिता भग्गा कंचनबाई वि. मांगु जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	120/2	0.129	0.129
	योग		0.575	0.575
37	मांगु पिता भग्गा कंचनबाई वि. मांगु जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	121/1	0.317	0.300
	प्रहलादसिंह पिता नानुसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	121/2	0.446	0.400
	योग		0.763	0.700
38	जमनाप्रसाद द पुत्र मांगू जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	123/1	0.872	0.286
39	प्रहलादसिंह पिता नानुसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	123/2	0.314	0.314
40	मोहनलाल पिता चंदरसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	123/3	0.314	0.314
41	सूरजसिंह द.पुत्र मांगु गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	123/4	0.873	0.873
	योग		2.373	1.787
42	भैरूलाल बलदेव सिंह पुत्र भंवरलाल भा. 25 पैसा लीलाबाई, चंदरबाई पुत्री कंवरलाल भा. 13 पैसा गोकलसिंह, पारस, इंदरसिंह, राधेश्याम पिता अनार राजलबाई पित अनार हिस्सा 28 पैसा, सिद्धनाथ पिता हजारीलाल शांतिबाई छीताबाई मानुबाई पिता हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल हि.36 पै. जाति गुर्जर सा.भा. भूमि स्वामी 25 पै. सिद्धनाथ पु. हजारीलाल सुरजबाई छीताबाई मानुबाई पु. हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल भा. 25 पै. भूमि स्वामी सा.भा. मांग्रीलाल मानसिंह पु. उमराव हि. 14 पै. हिन्दुसिंह पिता पीरुसिंह हि. 8	124	0.136	0.052
	योग		0.136	0.052
43	मानसिंह पिता परताप जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	125	0.125	0.100
	योग		0.125	0.100
44	अमर सिंह पु. दरियाव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	126/1/मीन1	0.083	0.083
	योग		0.083	0.083


क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
45	हिन्दु सिंह पु. बंशीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	126/1/मीन2	0.084	0.084
	योग		0.084	0.084
46	बाजाबाई पति भंवर जी जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	126/2	0.240	0.240
	योग		0.240	0.240
47	शकुबाई पारीबाई पु. भारत देव सिंह आत्माराम व्यस्क जालु पिता भारत भा 1/2 सं भाग पि. देवी गुर्जर मांगीलाल गंगाराम तोलाराम पिता बक्सराम शान्तीबाई पुत्री बक्तराम भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सा भाग पि. देरीगुजर बसराम पु. भारत सर पि. देवा हि 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	127/1	0.502	0.502
48	मानसिंह पिता परताप जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	127/2	0.052	0.052
	योग		0.554	0.554
49	शकुबाई पारीबाई पु. भारत देव सिंह आत्माराम व्यस्क जालु पिता भारत भा 1/2 सं भाग पि. देवी गुर्जर मांगीलाल गंगाराम तोलाराम पिता बक्सराम शान्तीबाई पुत्री बक्तराम भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सा भाग पि. देरीगुजर बसराम पु. भारत सर पि. देवा हि 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	128	0.261	0.261
	योग		0.261	0.261
50	शकुबाई पारीबाई पु. भारत देव सिंह आत्माराम व्यस्क जालु पिता भारत भा 1/2 सं भाग पि. देवी गुर्जर मांगीलाल गंगाराम तोलाराम पिता बक्सराम शान्तीबाई पुत्री बक्तराम भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सा भाग पि. देरीगुजर बसराम पु. भारत सर पि. देवा हि 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	129	0.157	0.157
	योग		0.157	0.157
51	मानसिंह पिता परताप जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	130	0.157	0.157
	योग		0.157	0.157

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
52	हरिवल्लभ नारायण पुरुशोत्तम सत्यानारायण पिता भंवरलाल भाग 4/6 समान भाग मनोज कुमार संदीप कुमार प्रमोद कुमार नाबा पिता राधेश्याम संतोष बाई पपीबाई मुन्नी बाई रीना बाई नाबा पिता राधेश्याम ना बा सर माता तारा बाई वि. राधेश्याम भाग 1/6 सम भाग लीला बा	131	0.366	0.366
	योग		0.366	0.366
53	बिहारी लाल पु. दरियाव जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	132	0.753	0.753
	योग		0.753	0.753
54	शकुबाई पारीबाई पु. भारत देव सिंह आत्माराम व्यस्क जालु पिता भारत भा 1/2 सं भाग पि. देवी गुर्जर मांगीलाल गंगाराम तोलाराम पिता बक्सराम शान्तीबाई पुत्री बक्तराम भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सा भाग पि. देरीगुजर बसराम पु. भारत सर पि. देवा हि 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	133	0.815	0.815
			0.815	0.815
55	शकुबाई पारीबाई पु. भारत देव सिंह आत्माराम व्यस्क जालु पिता भारत भा 1/2 सं भाग पि. देवी गुर्जर मांगीलाल गंगाराम तोलाराम पिता बक्सराम शान्तीबाई पुत्री बक्तराम भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सा भाग पि. देरीगुजर बसराम पु. भारत सर पि. देवा हि 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	133/613/1	0.366	0.366
	योग		0.366	0.366
56	शकुबाई पारीबाई पु. भारत देव सिंह आत्माराम व्यस्क जालु पिता भारत भा 1/2 सं भाग पि. देवी गुर्जर मांगीलाल गंगाराम तोलाराम पिता बक्सराम शान्तीबाई पुत्री बक्तराम भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सा भाग पि. देरीगुजर बसराम पु. भारत सर पि. देवा हि 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	133/613/2	0.105	0.105
	योग		0.105	0.105

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
57	शकुबाई पारीबाई पु. भारत देव सिंह आत्माराम व्यस्क जालु पिता भारत भा 1/2 सं भाग पि. देवी गुर्जर मांगीलाल गंगाराम तोलाराम पिता बक्सराम शान्तीबाई पुत्री बक्तराम भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सा भाग पि. देरीगुजर बसराम पु. भारत सर पि. देवा हि 1/2 जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	134	0.376	0.376
	योग		0.376	0.376
58	भैरूलाल बल्देव सिंह पुत्र भंवरलाल भा. 25 पैसा लीलाबाई, चंदरबाई पुत्री कंवरलाल भा. 13 पैसा गोकलसिंह, पारस, इंदरसिंह, राधेश्याम पिता अनार राजलबाई पिता अनार हिस्सा 28 पैसा, सिद्धनाथ पिता हजारीलाल शांतिबाई छीताबाई मानुबाई पिता हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल हि. 36 पै. जाति गुर्जर सा.भा. भूमि स्वामी 25 पै. सिद्धनाथ पु. हजारीलाल सुरजबाई छीताबाई मानुबाई पु. हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल भा. 25 पै. भूमि स्वामी सा.भा. मांगीलाल मानसिंह पु. उमराव हि. 14 पै. हिन्दुसिंह पिता पीरुसिंह हि. 8	135	0.888	0.888
	योग		0.888	0.888
59	उदय सिंह पिता परताप जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	137/1	0.167	0.167
	योग		0.167	0.167
60	उदय सिंह पिता परताप जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	137/2	0.314	0.314
	योग		0.314	0.314
61	गोपीलाल पिता परताप जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	138/1/मीन1	0.439	0.439
	योग		0.439	0.439
62	उदय सिंह पिता परताप जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	138/1/मीन2	0.272	0.272
	योग		0.272	0.272
63	कालूराम पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	138/2 139/1	1.045	1.045
	योग		1.045	1.045
64	मानसिंह पिता परताप जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	138/3 138/4 138/5	0.371	0.371
	योग		0.371	0.371

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
65	मानसिंह उमराव पिता दयाराम सुरज वि. दयाराम जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	138/6	0.058	0.058
	योग		0.058	0.058
66	मानसिंह उमराव पिता दयाराम सुरजबाई वि. दयाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	139/2 139/3 140 145/1 145/2	2.038	2.038
67	मानसिंह उमराव पिता दयाराम सुरजबाई वि. दयाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	139/4	0.679	0.679
68	हरि बलदेव पुत्र घीसा जाति गुर्जर	139/5 139/7 145/7	1.641	1.641
69	भुरे सिंह पिता कालु जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	139/6 139/10 141/2 141/3 145/8	0.538	0.538
70	मानसिंह पिता कालु जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	139/6/श्रीन2 130/10 141/2 141/3 145/8	0.538	0.538
71	हरी बलदेव पुत्र घीसा जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	139/8	0.042	0.042
72	हरी बलदेव पुत्र घीसा जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	139/9 141/4	0.303	0.303
73	मानसिंह उमराव पिता दयाराम सुरजबाई वि. दयाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	139/11	0.167	0.167
	योग		5.946	5.946
75	हरी बलदेव पुत्र घीसा जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	141/1	1.066	1.066
	योग		1.066	1.066
76	हरी बलदेव पुत्र घीसा जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	141/5	0.105	0.105
	योग		0.105	0.105
77	मानसिंह उमराव पिता दयाराम सुरज वि. दयाराम जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	145/3	0.167	0.167
	योग		0.167	0.167
78	हरी बलदेव पुत्र घीसा जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	145/4 145/6	0.867	0.867


क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
	योग		0.867	0.867
79	हरी बल्देव पुत्र घीसा जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	145/5	0.063	0.063
	योग		0.063	0.063
80	मानसिंह उमराव पिता दयाराम सूरजबाई वि. दयाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	145/10	0.209	0.209
	योग		0.209	0.209
81	मानसिंह उमराव पिता दयाराम सूरजबाई वि. दयाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	145/11	0.209	0.209
	योग		0.209	0.209
82	भूरसिंह पिता कालू जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	145/12/मीन1	0.235	0.235
	योग		0.235	0.235
83	मानसिंह पुत्र कालू जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	145/12/मीन2	0.235	0.235
	योग		0.235	0.235
84	धनजी पुत्र पीरुसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	145/13	0.585	0.585
85	कैलाश पिता बापूलाल जैन नि. नलखेडा	145/14/मीन2	0.216	0.216
86	शंतिबाई वि. तोलाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	145/14/मीन1	0.160	0.160
	योग		0.961	0.961
87	भूरसिंह पिता कालू जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	145/15	0.502	0.502
	योग		0.502	0.502
88	कमल सिंह पिता तोलाराम जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	146/1/1/1	0.238	0.238
	योग		0.238	0.238
89	सुरेश पिता तोलाराम जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	146/1/1/2	0.239	0.239
	योग		0.239	0.239
90	धनजी पु. पीरुसिंह जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	146/1/2/1	0.338	0.338
91	सजन पिता शिवनारायण जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	146/1/2/2	0.105	0.105
	योग		0.443	0.443
92	धनजी पु. पीरुसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	147	0.408	0.408
	योग		0.408	0.408
93	कैलाश पिता बापूलाल जैन नि. नलखेडा	148/1	0.829	0.829



क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
	योग		0.829	0.829
94	धनजी पु. पीरुसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	148/2	0.300	0.300
	योग		0.300	0.300
95	भगवान सिंह पिता छीता हि 54 पै मानसिंह शिवनारायण पिता भगवानसिंह हि 18 पै समभाग कमल सिंह पिता भैया हि 28 पै जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	152	0.867	0.867
	योग		0.867	0.867
96	अनिल पिता आत्माराम जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	153/1	1.087	1.087
	योग		1.087	1.087
97	केशर सिंह पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	153/2/1	0.243	0.243
	योग		0.243	0.243
98	काशीराम पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	153/2/2	0.242	0.242
	योग		0.242	0.242
99	कमल सिंह पिता मान सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	153/2/3	0.243	0.243
	योग		0.243	0.243
100	गिलासबाई वि. कैलाश जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	153/3/मीन1	0.364	0.364
	योग		0.364	0.364
101	चंदर सिंह पु. नारायण सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	153/3/मीन2	0.364	0.364
	योग		0.364	0.364
102	देवल्या पिता जगन्नाथ जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	153/4	0.364	0.364
	योग		0.364	0.364
103	बिहारीलाल भैरु लाल रामप्रसाद पिता अमर सिंह कालुबाई वि. अमर सिंह पारुबाई पिता अमर सिंह	153/5	0.364	0.364
	योग		0.364	0.364
104	विक्रमसिंह पिता मदन सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	153/6	1.097	1.097
	योग		1.097	1.097
105	देवल्या पिता जगन्नाथ जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	154/1	0.288	0.288
	योग		0.288	0.288



क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
106	बिहारीलाल भैरू लाल रामप्रसाद पिता अमर सिंह कालुबाई वि. अमर सिंह पारुबाई पिता अमर सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	154/3	0.288	0.288
	योग		0.288	0.288
107	बिहारीलाल भैरू लाल रामप्रसाद पिता अमर सिंह कालुबाई वि. अमर सिंह पारुबाई पिता अमर सिंह	154/4	0.094	0.094
	योग		0.157	0.157
108	हरिवल्लभ नारायण पुरुषोत्तम सत्यानारायण पिता भंवरलाल भाग 4/6 समान भाग मनोज कुमार संदीप कुमार प्रमोद कुमार नाबा पिता राधेश्याम संतोष बाई पपीबाई मुन्नी बाई रीना बाई नाबा पिता राधेश्याम ना बा सर माता तारा बाई वि. राधेश्याम भाग 1/6 सम भाग लीला बाई पुत्री भंवरलाल भाग 1/6 जाति ब्राह्मण पता नि. ग्रा. भूमि समी	155 68/630	0.157	0.157
	योग		0.157	0.157
109	विक्रमसिंह पिता मदन सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	156/1	0.272	0.272
	योग		0.272	0.272
110	अनिल पिता आत्माराम जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	156/2	0.261	0.261
	योग		0.261	0.261
111	बहादुर सिंह पिता भगवान सिंह जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	157/1/1 161/2	1.034	1.034
112	चंदरबाई पति भगवानसिंह जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	157/1/2 161/3	0.033	0.033
	योग		1.067	1.067
113	लीलाबाई पति धन जी जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	158/1	0.345	0.345
	योग		0.345	0.345
114	बाबुलाल व रामप्रसाद बाई पिता मांगीलाल	159	0.063	0.063
115	भगवानसिंह पिता पीरुसिंह जाति गुर्जर	161/1	0.033	0.033
116	राजेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर	161/4	1.033	1.033
	योग		1.129	1.129
117	मानसिंह उमराव पिता दयाराम सुरजबाई वि. दयाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	165/1 172/1	0.199	0.100
118	हरी बलदेव पुत्र घीसा जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	165/2 172/2	0.199	0.100



क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
	योग		0.398	0.200
119	मानसिंह उमराव पिता दयाराम सुरजबाई वि. दयाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	166/1 166/2	0.042	0.010
	योग		0.042	0.010
120	सुंदरबाई विधवा धूला कमलाबाई रामूबाई नर्मदाबाई प्रकाशबाई पिता धूला जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	171	0.303	0.052
	योग		0.303	0.052
121	हरी बलदेव पुत्र घीसा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	172/3	0.115	0.115
122	मेवा बाई वि. पन्नालाल गीताबाई पिता पन्नालाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	172/4	0.021	0.021
123	मेहरबान सिंह पिता धूला जी जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	172/628	0.073	0.073
	योग		0.209	0.209
124	तोलाराम पु बद्धा जी जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	173	0.366	0.366
125	मानसिंह, उमराव पिता दयाराम सुरजबाई वि. दयाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	173/614	0.115	0.115
	योग		0.481	0.481
126	हरी बलदेव पुत्र घीसा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	174	0.125	0.125
	योग		0.125	0.125
127	मोहन दत्तक पुत्र तोलाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	175	0.125	0.125
	योग		0.125	0.125
128	लीलाबाई पति धन जी जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	177/1	1.045	1.045
	योग		1.045	1.045
129	चंदर सिंह पिता धूला जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	177/2	0.293	0.293
	योग		0.293	0.293
130	बिहारीलाल पिता देवा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	177/632	0.711	0.105
	योग		0.711	0.105
131	बहादुरसिंह पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	178/1	0.177	0.177
132	बिहारीलाल पिता देवा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	178/2	0.178	0.178

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
	योग		0.355	0.355
133	मेहरबान सिंह पिता धुला जी जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	179	0.397	0.397
	योग		0.397	0.397
134	मेवा बाई वि. पन्नालाल गीताबाई पिता पन्नालाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	180	0.293	0.293
	योग		0.293	0.293
135	बहादुर सिंह पिता भगवान सिंह जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	181/1	0.105	0.105
	योग		0.105	0.105
136	बहादुर सिंह पिता भगवान सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	181/2	0.178	0.178
	योग		0.178	0.178
137	बिहारीलाल पिता देवा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	181/3	0.104	0.104
138	बिहारीलाल पिता देवा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	181/4	0.177	0.177
	योग		0.281	0.281
139	भगवान सिंह पिता छीता हि 54 पै मानसिंह शिवनारायण पिता भगवान सिंह हि 18 पै समभाग कमल सिंह पिता भैया हि 28 पै जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	182 191/2	0.617	0.617
	योग		0.617	0.617
140	निर्मला पिता बहादुर जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	183/1	0.261	0.261
	योग		0.261	0.261
141	बिहारीलाल पिता देवा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	183/2	0.262	0.262
	योग		0.262	0.262
142	भगवान सिंह पु. बिहारीलाल जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	186/1	0.836	0.836
	योग		0.836	0.836
143	देवल्या हि 1/2 पिता जगन्नाथ बिहारीलाल भैरूलाल रामप्रसाद पिता अमर सिंह कामू बाई वि. अमरसिंह हि 3/8 समभाग तौलाराम पिता बिहारलाल हि 1/8 जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	186/2	1.296	1.296
	योग		1.296	1.296
144	पुरा पु. घीसा जाति चमार पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	187	1.515	1.515
	योग		1.515	1.515

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
145	शिव राजाराम पिता रामा बालीबाई, गीताबाई शकुबाई पिता रामा दुर्गाप्रसाद देवकरण पिता छितु पप्पीबाई पुत्री छीतु कमलाबाई वि. छितु जाति भील पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी स.भा.	189/1	0.993	0.993
	योग		0.993	0.993
146	भगवानसिंह पिता छिता हि 54 पै मानसिंह शिवनारायण पिता भगवान सिंह हि 18 पै समभाग कमलसिंह पिता भैया हि 28 पै जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	191/1	0.805	0.805
	योग		0.805	0.805
147	चंदरबाई पति विक्रमसिंह जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	192/1	0.189	0.189
	योग		0.189	0.189
148	चंदरबाई पति विक्रमसिंह जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	192/2	0.146	0.146
	योग		0.146	0.146
149	चंदरबाई पति विक्रमसिंह जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	192/3	0.084	0.084
	योग		0.084	0.084
150	अरविन्द पिता आत्माराम जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	193	0.199	0.199
	योग		0.199	0.199
151	अरविन्द पिता आत्माराम जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	195	0.491	0.491
	योग		0.491	0.491
152	भगवान सिंह पिता छिता हि 54 पै मानसिंह शिवनारायण पिता भगवान सिंह हि 18 पै सम भाग कमल सिंह पिता भैया पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	196	0.230	0.230
	योग		0.230	0.230
153	भगवान सिंह पिता छिता हि 54 पै मानसिंह शिवनारायण पिता भगवान सिंह हि 18 पै सम भाग कमल सिंह पिता भैया पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	197	0.334	0.334
	योग		0.334	0.334
154	भगवान सिंह पिता छिता हि 54 पै मानसिंह शिवनारायण पिता भगवान सिंह हि 18 पै सम भाग कमल सिंह पिता भैया पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	198 210/1	0.397	0.397
	योग		0.397	0.397

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
155	चंदरबाई पति विक्रमसिंह जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	199/1	1.150	1.150
	योग		1.150	1.150
156	अरविन्द पिता आत्माराम जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	199/2	0.878	0.878
	योग		0.878	0.878
157	चंदरबाई पति विक्रमसिंह जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	199/3	0.418	0.418
	योग		0.418	0.418
158	अरविन्द पिता आत्माराम जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	199/4	0.418	0.418
	योग		0.418	0.418
159	भगवान सिंह पिता छीता हि 54 पै मानसिंह शिवनारायण पिता भगवान सिंह हि 18 पै समभाग कमल सिंह पिता भैया हि 28 पै पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	200	0.209	0.209
	योग		0.209	0.209
160	करणसिंह पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	201/1	0.136	0.136
161	बाबुलाल व, रामप्रसादबाई पिता मांगीलाल, सिद्धिबाई वि. मांगीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	201/2	0.136	0.136
	योग		0.272	0.272
162	प्रहलाद सिंह पिता नानुसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	202/1	0.081	0.081
163	मोहनलाल पिता चंदरसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	202/2	0.081	0.081
164	मांगु पिता भग्गा, कंचनबाई वि. मांगु जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	202/3	0.162	0.162
	योग		0.324	0.324
165	बिहारीलाल पिता देवा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	203 205	0.339	0.339
	योग		0.339	0.339
166	हरी बल्देव पुत्र घीसा जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	207/1	0.031	0.031
	योग		0.031	0.031
167	हरी बल्देव पुत्र घीसा जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	207/2	0.031	0.031
	योग		0.031	0.031
168	मोहन दत्तक पुत्र तोलाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	208	0.261	0.261
	योग		0.261	0.261

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
169	मानसिंह उमराव पिता दयाराम सूरजबाई वि. दयाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	208/615/1	0.031	0.031
	योग		0.031	0.031
170	मानसिंह उमराव पिता दयाराम सूरजबाई वि. दयाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	208/615/2	0.031	0.031
	योग		0.031	0.031
171	गिलासबाई वि. कैलाश जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	209/1	0.554	0.402
172	देवल्या पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	209/2	0.277	0.252
173	कमल सिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	209/3/1	0.282	0.252
174	काशीराम पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	209/3/2	0.282	0.252
175	बिहारीलाल भैरु लाल रामप्रसाद पिता अमर सिंह कालुबाई वि. अमरसिंह पारुबाई पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	209/4	0.277	0.260
	योग		1.672	1.418
176	भगवान सिंह पिता छिता हि 54 पै मानसिंह शिवनारायण पिता भगवान सिंह हि 18 पै सम भाग कमल सिंह पिता भैया पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	210/2	0.564	0.564
	योग		0.564	0.564
177	मेवा बाई वि. पन्नालाल गीताबाई पिता पन्नालाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	210/4 211/5	0.481	0.481
	योग		0.481	0.481
178	भगवान सिंह पिता छिता हि 54 पै मानसिंह शिवनारायण पिता भगवान सिंह हि 18 पै सम भाग कमल सिंह पिता भैया जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	210/5 208/623	0.721	0.721
	योग		0.721	0.721
179	मेहरबान सिंह पिता धुला जी जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	210/6	0.251	0.251
	योग		0.251	0.251
180	चंदर सिंह पिता धूला जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	211/2	0.376	0.376

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
181	मेवा बाई वि. पन्नालाल गीताबाई पिता पन्नालाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	211/3 211/4	0.334	0.334
	योग		0.710	0.710
182	चंदर सिंह पिता नानुसिंह निर्भयसिंह पिता चंदरसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	216/1	0.094	0.094
183	मांगु पिता भग्गा कंचनबाई वि. मांगु जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	216/2	0.094	0.094
184	योग		0.188	0.188
185	होकम सिंह पिता जग्गा पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	240/2	0.261	0.035
186	सीताराम पिता कालु सिंह सौरम बाई वि कालु सिंह समान भाग पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	240/3	0.081	0.035
187	ज्ञानसिंह पिता कालुसिंह सौरमबाई वि कालुसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	240/4	0.081	0.035
	योग		0.423	0.105
188	बाबु पिता गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	481/1	0.042	0.042
189	ज्ञान सिंह पिता कालु सिंह सौरम बाई वि . कालु सिंह पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	481/1/मीन1	0.042	0.042
	योग		0.084	0.084
190	काशीराम पिता जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	481/2 482/2	0.031	0.031
191	मांगीलाल पिता रामा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	481/3 482/2	0.031	0.031
192	होकम सिंह पिता जग्गा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	481/2/मीन1	0.083	0.083
193	सीताराम पिता कालु सिंह सौरम बाई वि कालु सिंह समान भाग पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	481/3/मीन1	0.042	0.042
194	चन्दरसिंह पिता रामा जाति गुर्जर	481/4	0.052	0.052
	योग		0.239	0.239
195	निर्भयसिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	483/1	0.648	0.035
196	कमल सिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	483/2	0.648	0.035
197	रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	483/3	0.648	0.035

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
198	बाबू पिता रामा जाति गुर्जर	484/1	0.079	0.079
199	काशीराम पिता रामा जाति गुर्जर	484/2	0.080	0.080
200	मांगीलाल पिता रामा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	484/3	0.080	0.080
201	चन्दरसिंह पिता रामा जाति गुर्जर	484/4	0.080	0.080
202	होकमसिंह पिता जग्गा जाति गुजर	484/5	0.158	0.158
203	सीताराम पिता कालु सिंह सौरम बाई वि कालु सिंह समान भाग पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	484/6	0.084	0.084
204	ज्ञानसिंह पिता कालुसिंह सौरमबाई वि कालुसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	484/7	0.077	0.077
205	भवरलाल पिता देवजी कमलाबाई पुत्री देवजी जाति भील	496	0.334	0.334
	योग		2.916	1.077
206	भवरलाल पिता देवजी कमलाबाई पुत्री देवजी जाति गुर्जर	497	0.042	0.042
	योग		0.042	0.042
207	भवरलाल पिता देवजी कमलाबाई पुत्री देवजी जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	498	0.125	0.100
	योग		0.125	0.100
208	भवरलाल पिता देवजी कमलाबाई पुत्री देवजी जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	499	0.418	0.205
	योग		0.418	0.205
209	इंदर सिंह पिता दोला जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	508/1	0.387	0.105
210	इंदर सिंह पिता दोला जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	508/2	1.003	0.105
211	छीतु पिता प्रहलाद जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	508/3/1	0.214	0.105
212	रामकुंवरबाई पति छीतुसिंह जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	508/3/2 535/2 536/2	0.350	0.105
	योग		1.954	0.420
213	लीलाबाई पति मदन पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	513/1	0.035	0.010
214	रमेश बहादूर सुरेश ईश्वर पिता नाथूसिंह व शांतीबाई वि. नाथूसिंह जाति गुजर	513/2	0.035	0.010



क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
215	छीतु पिता प्रहलाद पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	513/3	0.035	0.010
	योग		0.105	0.030
216	गंगाराम पिता करण सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	514/1	1.285	1.285
	योग		1.285	1.285
217	बसंतीलाल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	514/2/1	0.357	0.357
	योग		0.357	0.357
218	बहादुर पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	514/2/2	0.287	0.287
	योग		0.287	0.287
219	विक्रमसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	514/3	0.642	0.642
	योग		0.642	0.642
220	शांतीलाल पिता दयाराम शारदा बाई वि. दयाराम भूलीबाई अयोध्याबाई संतोषबाई ना.बा. पिता दयाराम सरपर माता शारदाबाई समभाग हि 1/10 रमेश कैलाश मानु पिता देवीसिंह कंचनबाई वि. देवीसिंह हि. 4/10 जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	516/1	1.286	1.286
	योग		1.286	1.286
221	हिम्मल सिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	516/2	0.261	0.261
	योग		0.261	0.261
222	हिम्मल सिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	517	0.366	0.366
	योग		0.366	0.366
223	हिम्मल सिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	518	0.314	0.314
	योग		0.314	0.314

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
224	दयाराम कैलाश पिता देवीसिंह रकबा 0.648 स भा रमेश मानु पिता देवीहिस कंचनबाई वि. देवीसिंह रकबा 1.758 समान भाग कालु पिता देवीसिंह रकबा 0.053 उमराव पिता गणपत 2-7/8 नारायण पिता शंकर रकबा 1.622 नारायण पिता शंकर गीताबाई राजुबाई शंकर रकबा 0.836 ईन्दरसिंह पिता अमरसिंह रकबा 1.569 गीताबाई पति प्रहलाद 2-7/8 पेसा अमरसिंह पिता लुणा रकबा 1.517 रम्भाबाई बाजाबाई गीता बाई पुत्रिया लुणा रकबा 5.493 समान भा. सुरताबाई पति भूमि स्वामी ईन्दरसिंह रकबा 0.314 जाति गुर्जर	519	0.408	0.352
	योग		0.408	0.352
225	हिम्मल सिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	520	0.481	0.381
	योग		0.481	0.381
226	मांगीलाल पिता हरलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	525/मीन1	0.444	0.340
	योग		0.444	0.340
227	चंदर सिंह पिता हरलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	525/मीन2	0.444	0.339
	योग		0.444	0.339
228	बहादुर पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	526/1	0.115	0.115
	योग		0.115	0.115
229	बसंतीलाल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	526/2	0.115	0.115
	योग		0.115	0.115
230	गोविंद पिता रमेश व लीलाबाई विधवा रमेश जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	526/3	0.115	0.115
	योग		0.115	0.115
231	फूलसिंह पिता भग्गा पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	527	0.418	0.418
	योग		0.418	0.418
232	शांतीलाल पिता चंदर सिंह पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	530/1 531	0.370	0.370
	योग		0.370	0.370
233	राधेश्याम पिता चंदर सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	530/2	0.282	0.282
	योग		0.282	0.282

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
234	भैरूलाल बल्देव सिंह पुत्र भंवरलाल भा. 25 पैसा लीलाबाई, चंदरबाई पुत्री कंवरलाल भा. 13 पैसा गोकलसिंह, पारस, इंदरसिंह, राधेश्याम पिता अनार राजलबाई पिता अनार हिस्सा 28 पैसा, सिद्धनाथ पिता हजारीलाल शांतिबाई छीताबाई मानुबाई पिता हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल हि.36 पै. जाति गुर्जर स.भा. भूमि स्वामी 25 पै. सिद्धनाथ पु. हजारीलाल सुरजबाई छीताबाई मानुबाई पु. हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल भा. 25 पै. भूमि स्वामी सा.भा. मांग्रीलाल मानसिंह पु. उमराव हि. 14 पै. हिन्दुसिंह पिता पीरुसिंह हि. 8	530/3	0.048	0.048
	योग		0.048	0.048
235	भैरूलाल बल्देव सिंह पुत्र भंवरलाल भा. 25 पैसा लीलाबाई, चंदरबाई पुत्री कंवरलाल भा. 13 पैसा गोकलसिंह, पारस, इंदरसिंह, राधेश्याम पिता अनार राजलबाई पिता अनार हिस्सा 28 पैसा, सिद्धनाथ पिता हजारीलाल शांतिबाई छीताबाई मानुबाई पिता हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल हि.36 पै. जाति गुर्जर स.भा. भूमि स्वामी 25 पै. सिद्धनाथ पु. हजारीलाल सुरजबाई छीताबाई मानुबाई पु. हजारीलाल सुरजबाई वि. हजारीलाल भा. 25 पै. भूमि स्वामी सा.भा. मांग्रीलाल मानसिंह पु. उमराव हि. 14 पै. हिन्दुसिंह पिता पीरुसिंह हि. 8	532	0.533	0.533
	योग		0.533	0.533
236	शांतीलाल पिता चंदर सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	533/1/1	0.293	0.240
237	राधेश्याम पिता चंदर सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	533/1/2	0.292	0.240
238	हिन्दु सिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	533/2	0.596	0.480
	योग		1.181	0.960
239	मानसिंह उमराव पिता दयाराम सुरजबाई वि. दयाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	534/1	0.387	0.052
240	छीतु पिता प्रहलाद जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	534/2	0.136	0.053
	योग		0.523	0.105




क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
241	राधेश्याम पिता चंदर सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	535/1	0.376	0.376
	योग		0.376	0.376
242	अमर सिंह पिता दरियाव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	536/1	0.244	0.244
	योग		0.244	0.244
243	बिहारीलाल पु. दरियाव जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	536/3 537/2	0.244	0.244
	योग		0.244	0.244
244	अमर सिंह पिता दरियाव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	537/1	0.122	0.122
	योग		0.122	0.122
245	हिन्दु सिंह पु. बंशीलाल चन्दरबाई पु. बंशीलाल गंगाबाई वि. बंशीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	537/3 537/4	0.366	0.366
	योग		0.366	0.366
246	बिहारीलाल पु. दरियाव जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	537/5	0.122	0.122
	योग		0.122	0.122
247	मांगीलाल पिता उमराव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	538/1	1.202	1.202
	योग		1.202	1.202
248	मानसिंह पिता उमराव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	538/2	1.045	1.045
	योग		1.045	1.045
249	ईश्वर सिंह पिता कैलाश पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	539/1	0.523	0.523
	योग		0.523	0.523
250	सुरेश पिता केशर सिंह पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	539/2/1	0.174	0.174
	योग		0.174	0.174
251	काशीराम पिता भागीरथ पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	539/2/2	0.174	0.174
	योग		0.174	0.174
252	कमल सिंह पिता मान सिंह पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	539/2/3	0.175	0.175
	योग		0.175	0.175
253	मदनलाल नाथु सिंह छीतु सिंह प्रभुलाल पिता प्रहलाद जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	540/1 547/1	0.170	0.170
	योग		0.170	0.170



क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
254	हिन्दु सिंह पिता उमराव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	540/2 547/2	0.171	0.171
	योग		0.171	0.171
255	अंजुबाई पति चंदर सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	540/3 547/3	0.171	0.171
	योग		0.171	0.171
256	लीलाबाई पति मदन जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	541/2 546/2	0.222	0.222
	योग		0.222	0.222
257	बालीबाई अयोध्या बाई पुत्री किशन जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	541/3 546/3	0.222	0.222
	योग		0.222	0.222
258	अंजुबाई पति चंदर सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	541/4	0.222	0.222
	योग		0.222	0.222
259	विक्रमसिंह पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	542/1	0.711	0.711
	योग		0.711	0.711
260	देवीसिंह द पु उमराव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	542/2	0.157	0.157
	योग		0.157	0.157
261	देवीसिंह द पु उमराव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	543/1	0.115	0.115
	योग		0.115	0.115
262	देवीसिंह द पु उमराव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	543/2 544/2	0.083	0.083
	योग		0.083	0.083
263	देवीसिंह द पु उमराव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	544/1	0.105	0.105
	योग		0.105	0.105
264	भागीरथ पिता रणजीतसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	545/1	0.021	0.021
	योग		0.021	0.021
265	नारायणसिंह पिता रणजीतसिंह जाति गुर्जर	545/2	0.397	0.397
	योग		0.397	0.397
266	देवीसिंह द पु उमराव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	545/3	0.292	0.292
	योग		0.292	0.292
267	बालुसिंह पिता रणजीत सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	548/1	0.264	0.264
	योग		0.264	0.264



क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
268	इंदर सिंह पिता रणजीत सिंह जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	548/2	0.274	0.274
	योग		0.274	0.274
269	कंचनबाई वि. रणजीत सिंह देवबाई रामकुंवर बाई पुत्रीया रणजीत सिंह स भा पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	548/3	0.387	0.387
	योग		0.387	0.387
270	भागीरथ पिता रणजीतसिंह जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	548/4	0.191	0.191
	योग		0.191	0.191
271	भागीरथ पिता रणजीतसिंह पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	548/5	0.128	0.128
	योग		0.128	0.128
272	हिन्दु सिंह पु. बंशीलाल चन्दरबाई पु. बंशीलाल गंगाबाई वि. बंशीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	548/618/1	0.021	0.021
	योग		0.021	0.021
273	बिहारीलाल पिता दरियाव पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	548/618/2	0.031	0.031
	योग		0.031	0.031
274	हिन्दु सिंह पिता दरियाव जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	548/618/3	0.021	0.021
	योग		0.021	0.021
275	बालु सिंह पिता रणजीत सिंह पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	549/1	0.052	0.052
	योग		0.052	0.052
276	इंदर सिंह पिता रणजीत सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	549/2	0.042	0.042
	योग		0.042	0.042
277	कंचन बाई वि. रणजीत सिंह देवबाई रामकुंवर बाई पुत्रीया रणजीत सिंह स भा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	549/3	0.011	0.011
	योग		0.011	0.011
278	मांगु पिता भग्गा कंचनबाई वि. मांगु जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	552/1 553	0.231	0.231
279	मोहनलाल पिता चंदरसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	552/2	0.259	0.259
280	मेहरबान सिंह पिता प्रहलादसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	552/3	0.259	0.259
	योग		0.749	0.749



क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1.	2	3	6	9
281	भगवान सिंह पिता छीता हि 54 पै मानसिंह शिवनारायण पिता भगवान सिंह हि 18 पै समभाग कमल सिंह पिता भैया हि 28 पै पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	553/617/1	0.293	0.293
	योग		0.293	0.293
282	भगवान सिंह पिता छीता हि 54 पै मानसिंह शिवनारायण पिता भगवान सिंह हि 18 पै समभाग कमल सिंह पिता भैया हि 28 पै पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	553/617/2	0.094	0.094
	योग		0.094	0.094
283	गोविंद पिता रमेश व लीलाबाई विधवा रमेश जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	553/617/3	0.125	0.125
	योग		0.125	0.125
284	मांगु पिता भग्ना कचनबाई वि. भग्ना जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	553/617/4	0.282	0.282
	योग		0.282	0.282
285	विक्रम सिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	554 555	0.627	0.627
	योग		0.627	0.627
286	देवल्या हि 1/2 पु. जगन्नाथ बिहारीलाल भैरूलाल रामप्रसाद पिता अमर सिंह कामू बाई वि. अमरसिंह पारुबाई पिता अमरसिंह हि 3/8 समभाग तोलाराम पिता बिहारीलाल हि 1/8 जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	554/1	1.672	1.672
	योग		1.672	1.672
287	भगवान सिंह पिता छीता हि 54 पै मानसिंह शिवनारायण पिता भगवान सिंह हि 18 पै सम भाग कमल सिंह पिता भैया हि. 28 पैसे जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	556	0.502	0.502
	योग		0.502	0.502
288	देवल्या हि 1/2 पु. जगन्नाथ बिहारीलाल भैरूलाल रामप्रसाद पिता अमर सिंह कामूबाई वि. अमर सिंह पारुबाई पिता अमर सिंह हि 3/8 समभाग तोलाराम पिता बिहारीलाल हि 1/8 जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	557/1	1.672	1.672
	योग		1.672	1.672
289	हरी पुत्र गिरधारी जाति चमार पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	557/3	1.474	1.474
	योग		1.474	1.474

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
290	धर्मेन्द्रसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	559/1/1	0.151	0.151
291	भारतसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	559/1/2	0.151	0.151
292	अर्जुनसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जरपता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	559/1/3	1.855	1.855
293	भारतसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	559/1/4	1.090	1.090
294	धर्मेन्द्रसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	559/1/5	1.090	1.090
295	मांगीलाल पिता उमराव सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	559/2	0.627	0.627
	योग		4.964	4.964
296	मांगीलाल पिता हरलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	560/1 565/2/मीन1	0.518	0.518
297	चंदर सिंह पिता हरलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	560/1/मीन2 565/2	0.517	0.517
	योग		1.035	1.035
298	कमलसिंह पिता भैयाजी जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	560/2	1.359	1.359
299	भगवानसिंह पिता छिता हि 1/2 मानसिंह शिवनारायण पिता भगवान सिंह हि. 1/2 जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	560/6 566/1	2.278	2.278
	योग		3.637	3.637
300	दयाराम कैलाश पिता देवीसिंह रकबा 0.648 स भा रमेश मानु पिता देवीहिस कंचनबाई वि. देवीसिंह रकबा 1.758 समान भाग कालु पिता देवीसिंह रकबा 0.053 उमराव पिता गणपत 2-7/8 नारायण पिता शंकर रकबा 1.622 नारायण पिता शंकर गीताबाई राजुबाई शंकर रकबा 0.836 ईन्दरसिंह पिता अमरसिंह रकबा 1.569 गीताबाई पति प्रहलाद 2-7/8 पेसा अमरसिंह पिता लुणा रकबा 1.517 रम्भाबाई बाजाबाई गीता बाई पुत्रिया लुणा रकबा 5.493 समान भा. सुरताबाई पति भूमि स्वामी ईन्दरसिंह रकबा 0.314 जाति गुर्जर	561/1/मीन1	2.025	1.800
301	मांगीलाल पिता हरलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	561/1/मीन2	1.010	0.900



क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
302	चंदर सिंह पिता हरलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	561/1/मीन3	1.010	0.800
303	दूलेसिंह पिता अमर सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	561/1/मीन4	0.100	0.100
304	लाडसिंह पिता अमर सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	561/1/मीन5	0.148	0.418
305	सुरताबाई विधवा काशीराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	561/1/मीन6	0.100	0.100
306	नारायण पिता शंकर जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	561/1/मीन7	0.594	0.594
	योग		4.987	4.712
307	दयाराम कैलाश पिता देवीसिंह रकबा 0.648 स भा रमेश मानु पिता देवीहिस कंचनबाई वि. देवीसिंह रकबा 1.758 समान भाग कालु पिता देवीसिंह रकबा 0.053 उमराव पिता गणपत 2-7/8 नारायण पिता शंकर रकबा 1.622 नारायण पिता शंकर गीताबाई राजुबाई शंकर रकबा 0.836 ईन्दरसिंह पिता अमरसिंह रकबा 1.569 गीताबाई पति प्रहलाद 2-7/8 पेसा अमरसिंह पिता लुणा रकबा 1.517 रम्भाबाई बाजाबाई गीता बाई पुत्रिया लुणा रकबा 5.493 समान भा. सुरताबाई पति भूमि स्वामी ईन्दरसिंह रकबा 0.314 जाति गुर्जर	561/2	0.189	0.189
	योग		0.189	0.189
308	दयाराम कैलाश पिता देवीसिंह रकबा 0.648 स भा रमेश मानु पिता देवीहिस कंचनबाई वि. देवीसिंह रकबा 1.758 समान भाग कालु पिता देवीसिंह रकबा 0.053 उमराव पिता गणपत 2-7/8 नारायण पिता शंकर रकबा 1.622 नारायण पिता शंकर गीताबाई राजुबाई शंकर रकबा 0.836 ईन्दरसिंह पिता अमरसिंह रकबा 1.569 गीताबाई पति प्रहलाद 2-7/8 पेसा अमरसिंह पिता लुणा रकबा 1.517 रम्भाबाई बाजाबाई गीता बाई पुत्रिया लुणा रकबा 5.493 समान भा. सुरताबाई पति भूमि स्वामी ईन्दरसिंह रकबा 0.314 जाति गुर्जर	565/1	1.380	0.142



क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1.	2	3	6	9
	योग		1.380	0.142
309	मोहनलाल पिता चंदरसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	567/1/1 568/3/1	0.763	0.763
	योग		0.763	0.763
310	प्रहलाद सिंह पिता नानुसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	567/1/2 568/3/2	0.763	0.763
	योग		0.763	0.763
311	मोती पन्ना पिता बाबरू जाति चमार	568/1	1.589	1.589
	योग		1.589	1.589
312	मेहरबान सिंह पिता अमर सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	568/2	0.679	0.679
	योग		0.679	0.679
313	दयाराम कैलाश पिता देवीसिंह रकबा 0.648 स भा रमेश मानु पिता देवीहिस कंचनबाई वि. देवीसिंह रकबा 1.758 समान भाग कालु पिता देवीसिंह रकबा 0.053 उमराव पिता गणपत 2-7/8 नारायण पिता शंकर रकबा 1.622 नारायण पिता शंकर गीताबाई राजुबाई शंकर रकबा 0.836 ईन्दरसिंह पिता अमरसिंह रकबा 1.569 गीताबाई पति प्रहलाद 2-7/8 पेसा अमरसिंह पिता लुणा रकबा 1.517 रम्भाबाई बाजाबाई गीता बाई पुत्रिया लुणा रकबा 5.493 समान भा. सुरताबाई पति भूमि स्वामी ईन्दरसिंह रकबा 0.314 जाति गुर्जर	568/4	0.261	0.261
314	लीलाबाई वि. रमेश जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	568/4/1	0.418	0.418
315	सुरताबाई विधवा काशीराम जीवन ना.बा. पिता काशीराम सरपरस्त माता सुरताबाई जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	568/4/2	0.261	0.261
	योग		0.940	0.940


क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
316	दयाराम कैलाश पिता देवीसिंह रकबा 0.648 स भा रमेश मानु पिता देवीहिस कंचनबाई वि. देवीसिंह रकबा 1.758 समान भाग कालु पिता देवीसिंह रकबा 0.053 उमराव पिता गणपत 2-7/8 नारायण पिता शंकर रकबा 1.622 नारायण पिता शंकर गीताबाई राजुबाई शंकर रकबा 0.836 ईन्दरसिंह पिता अमरसिंह रकबा 1.569 गीताबाई पति प्रहलाद 2-7/8 पेसा अमरसिंह पिता लुणा रकबा 1.517 रम्भाबाई बाजाबाई गीता बाई पुत्रिया लुणा रकबा 5.493 समान भा. सुरताबाई पति भूमि स्वामी ईन्दरसिंह रकबा 0.314 जाति गुर्जर	569/2	0.272	0.272
	योग		0.272	0.272
317	लीलाबाई वि. रमेश जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	569/1	0.418	0.418
318	शांतीलाल पिता दयाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	569/3	0.072	0.072
	योग		0.490	0.490
319	मांगीलाल पिता हरलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	570/मीन1	0.157	0.030
	चंदर सिंह पिता हरलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	570/मीन2	0.157	0.022
	योग		0.314	0.052
320	काशीराम पिता रामा जाति गुर्जर	585/1	0.232	0.232
321	मांगीलाल पिता रामा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा.	585/2	0.233	0.232
322	होकमसिंह पिता जग्गा जाति गुर्जर	585/3	0.465	0.465
	योग		0.930	0.929
323	सीमा अकिलाबाई पिता काशीराम जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	586/1/1	0.277	0.277
324	भागीरथ पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	586/1/2	0.277	0.277
325	अनार सिंह जाति गुर्जर	586/2/1	0.282	0.282
326	बाबुलाल पिता रामरतन पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	586/2/2	0.282	0.282
	योग		1.118	1.118
327	भूरीबाई पति भग्गा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	587	0.993	0.993

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1.	2	3	6	9
328	काशीराम पिता जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	589/1/1	0.073	0.073
329	मांगीलाल पिता रामा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	589/1/2	0.073	0.073
330	होकम सिंह पिता जग्गा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	589/1/3	0.752	0.752
	योग		0.898	0.898
331	काशीराम बाबु चंदर नानू पिता रामा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	589/2 597/2	0.617	0.617
332	चंदरसिंह पिता रामा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	589/3	0.388	0.388
333	गीताबाई, राजूबाई पिता शैतानबाई जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	589/3/मीन1	0.888	0.888
334	चंदरसिंह पिता रामसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	589/3/मीन2	0.278	0.278
335	मांगु पिता रामसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	589/3/मीन3	0.278	0.278
336	काशीराम पिता रामसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	589/3/मीन4	0.280	0.280
	योग		2.729	2.729
337	पप्पूसिंह पिता अमरसिंह जाति राव पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	593/4	0.836	0.836
	योग		0.836	0.836
338	बनेसिंह पिता अमरसिंह जाति राव पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	593/5	0.481	0.481
	योग		0.481	0.481
339	कब्बुबाई वि. मांगीलाल निर्मयसिंह कमलसिंह रामप्रसाद पु.ग. मांगीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	594/मीन1	0.638	0.638
	योग		0.638	0.638
340	शैतानबाई पति रामरतन जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	594/मीन2	0.209	0.209
	योग		0.209	0.209
341	रामुबाई वि. नारायणीया सुगनबाई सिद्धीबाई पिता नाराणीया हि 33 पै सम भाग मांगु पिता तल्ला हि 67 पै जाति चमार पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	595	0.146	0.146
	योग		0.146	0.146
342	सीताराम पिता कालु सिंह सौरम बाई वि कालु सिंह समान भाग जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	596/1	0.083	0.083
	योग		0.083	0.083



क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
343	ज्ञानसिंह पिता कालु सिंह सोरमबाई वि. कालुसिंह पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	596/2	0.335	0.335
	योग		0.335	0.335
344	काशीराम बाबु चंदर नानू पिता रामा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	597/1	1.254	1.254
345	बाबु पिता जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	597/1/1	0.753	0.753
346	सीताराम पिता कालु सिंह सोरम बाई वि कालु सिंह समान भाग जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	597/1/2	0.376	0.376
347	बाबु पिता जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	597/1/3	0.073	0.073
	योग		2.456	2.456
348	ज्ञान सिंह पिता कालु सिंह सोरम बाई वि. कालु सिंह पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	597/1/4	0.125	0.125
	योग		0.125	0.125
349	काशीराम पिता जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	597/2/1	0.073	0.073
350	होकम सिंह पिता जग्गा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	597/2/2	0.116	0.116
	योग		0.189	0.189
351	गीताबाई पु. रामरतन जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	598	0.899	0.850
	योग		0.899	0.850
352	धिसूलाल पिता हरचंद जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	599	2.101	0.209
	योग		2.101	0.209
353	मानसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	600/1/1	0.189	0.189
354	सोन सिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	600/1/2	0.261	0.261
355	रामसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	600/1/3	0.188	0.188
356	प्रभुलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	600/1/4	0.188	0.188
357	रतन सिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	600/1/5	0.261	0.261
358	बाबुलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	600/1/6	0.188	0.188
359	बिहारीलाल पिता देवा जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	600/2	1.275	1.275
	योग		2.550	2.550

37



क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
360	भग्गा पिता लालु जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	601	1.160	1.160
	योग		1.160	1.160
361	ईश्वर सिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	602/1/मीन1	0.188	0.188
362	जानीबाई नंदीबाई गोतमबाई पु. पुरा जाति चमार समान भाग भाग	602/1/मीन2	0.888	0.256
363	शंकर गोकल पिता गंगाराम अयोध्याबाई मानुबाई पिता गंगाराम हि 25 पै स भा अनार पिता भग्गा गंगाबाई पिता भग्गा हि 75 पै स भा जाति चमार पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	602/2 603/8	0.293	0.256
	योग		1.369	0.700
364	ईश्वर सिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	603/1 6014/8 604/8 604/9	0.523	0.523
	योग		0.523	0.523
365	ईश्वर सिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	603/2/मीन1	0.533	0.533
	योग		0.533	0.533
366	शंकर गोकल पिता गंगाराम अयोध्याबाई मानुबाई पिता गंगाराम हि 25 पै स भा अनार पिता भग्गा गंगाबाई पिता भग्गा हि 75 पै स भा जाति चमार पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	603/2/मीन2	0.356	0.356
	योग		0.356	0.356
367	होक्म पिता गोकुल जाति चमार	603/2/मीन3	0.135	0.135
	योग		0.135	0.135
368	भूलीबाई पति मानसिंह जाति गुर्जर	603/4/मीन1 603/5	0.287	0.287
	योग		0.287	0.287
369	मेवालाल पु. धन्नालाल जाति खाती	603/7/मीन1	0.157	0.157
	योग		0.157	0.157
370	भगवानसिंह पु. बिहारीलाल जाति गुर्जर	603/7/मीन2	0.418	0.418
	योग		0.418	0.418
371	ईश्वर सिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	603/8/मीन2	0.105	0.105
	योग		0.105	0.105
372	गीताबाई पति रमेशचंद्र गोवर्धनसिंह पिता बल्देवसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/1	0.397	0.397
	योग		0.397	0.397



क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
1	2	3	6	9
373	गीताबाई पति रमेशचंद्र गोवर्धनसिंह पिता बलदेवसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/2 604/4	0.711	0.711
	योग		0.711	0.711
374	गीताबाई पति रमेशचंद्र गोवर्धनसिंह पिता बलदेवसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/3 605/3	0.648	0.648
	योग		0.648	0.648
375	गीताबाई पति रमेशचंद्र गोवर्धनसिंह पिता बलदेवसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/4 605/2	0.669	0.669
	योग		0.669	0.669
376	गीताबाई पति रमेशचंद्र गोवर्धनसिंह पिता बलदेवसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/5/मीन1	0.051	0.051
	योग		0.051	0.051
377	रमेशचंद्र गोवर्धनलाल पिता बलदेवसिंह स भाग जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/5/मीन2 605/1	0.879	0.879
	योग		0.879	0.879
378	गीताबाई पति रमेशचंद्र गोवर्धनसिंह पिता बलदेवसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/12	0.178	0.178
	योग		0.178	0.178
379	गीताबाई पति रमेशचंद्र गोवर्धनसिंह पिता बलदेवसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/13	0.146	0.146
	योग		0.146	0.146
380	गीताबाई पति रमेशचंद्र गोवर्धनसिंह पिता बलदेवसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/6 604/7	0.449	0.397
381	होकम सिंह पिता गोकुल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/8 604/9	0.617	0.046
382	होकम सिंह पिता गोकुल जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/10 604/11मीन	0.690	0.046
383	ईश्वर सिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/11	0.073	0.073
384	भागीरथ पिता रणजीत सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/14/1	0.094	0.046
385	नारायण पिता रणजीत सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	604/14/2	0.095	0.046
	योग		2.018	0.654

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
386	रमेशचन्द्र गोवर्धनलाल पिता बल्देवसिंह स भाग जाति गूजर पता नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	605/5	0.254	0.070
387	गीताबाई पति रमेशचन्द्र गोवर्धनसिंह पिता बल्देवसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	605/5/मीन 1	0.331	0.070
388	बालुसिंह पिता रणजीत सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	605/6 605/7 605/8	0.848	0.069
योग ..			1.433	0.209
कुल योग ..			147.497	132.467

नोट :—

- (1) भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कुण्डालिया वृहद परियोजना के अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है.
- (3) अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
- (4) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर के समक्ष आपेक्ष, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 01-अ-82-2016-17

छतरपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2017

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2016-17 बड़ामलहरा चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि/मकान/परिसम्पत्तियों धारकों की अंकित मकान/परिसम्पत्ति की बानसुजारा बाँध परियोजना के अंतर्गत डूब में आने से राज्य सरकार का सम्बंधित विभाग/उपक्रम मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2/2014ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को मकान/परिसम्पत्ति आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 की धारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकान/परिसम्पत्ति की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(1) मकान/परिसम्पत्ति का विवरण:-

(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- धुवारा
(ग) ग्राम- बरेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 13752.90 वर्ग मी

सं. क्र.	आबादी खसरा नम्बर	मकान स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित मकान का क्षेत्रफल वर्ग मी० में
1	2	3	4
1	237, 238, 241,	इमरत लोधी पुत्र नन्ने	118.24
2	242, 433, 466, 456, 465, 573,	देशराज पुत्र नन्ने लोधी रमेश पुत्र देशराज लोधी	117.45
3	577, 499/2,	पन्ना लाल लोधी पुत्र दुलीचंद्र	156.84
4	460, 461, 462	मानसिंह लोधी पुत्र दुलीचंद्र	46.18
5		मोहन लोधी पुत्र परमलाल	166.92
6		कामता लोधी पुत्र परमलाल	177.06
7		सुकका लोधी पुत्र गनेशी	116.75
8		हल्के लोधी पुत्र गनेशी	132.80
9		बब्बू लोधी पुत्र गनेशी हरीराम लोधी पुत्र बब्बू	134.49
10		किशोरी लोधी पुत्र खज्जा	75.52
11		सीताराम पुत्र प्यारेलाल लोधी	70.92

12	मथुरा पाल पुत्र सरमन रामकिशन पाल पुत्र हलकाई	215.31
13	धनप्रसाद पाल पुत्र जुददा	89.35
14	काशीराम पाल पुत्र दुरुवा	219.45
15	नत्थू लोधी पुत्र मोहन लाल चन्द्रभान लोधी पुत्र नत्थू	129.50
16	आत्माराम आदिवासी पुत्र भुल्ला	36.82
17	भौपाली आदिवासी पुत्र भुल्ला	22.82
18	मुन्नी आदिवासी पुत्र लक्ष्मना	74.21
19	नन्हा आदिवासी पुत्र लक्ष्मना	42.59
20	हरलाल आदिवासी पुत्र नन्हा	18.41
21	हरप्रसाद आदिवासी पुत्र नन्हा	54.69
22	कमल आदिवासी पुत्र मोहन	62.76
23	पहलवान आदिवासी पुत्र कूटू	103.85
24	दलुआ आदिवासी पुत्र कूटू	99.21
25	भूरा लोधी पुत्र चुन्टी	108.68
26	मुलायम सिंह पुत्र भूरा लोधी	65.20
27	चुन्टी लोधी पुत्र लछुआ	44.52
28	मानसिंह लोधी पुत्र पन्नालाल	31.59
29	पन्नालाल लोधी पुत्र राम प्रसाद	38.40
30	घनश्याम लोधी पुत्र रामप्रसाद	28.59
31	हनुमत लोधी पुत्र रामप्रसाद	39.86
32	खिल्लन लोधी पुत्र रामप्रसाद	45.90
33	करन लोधी पुत्र दिल्ले	147.74
34	धनीराम लोधी पुत्र दिल्ले	179.96
35	फूलसिंह लोधी पुत्र हीरालाल	128.95
36	चतुरसिंह लोधी पुत्र हीरालाल	72.77
37	रामसेवक लोधी पुत्र कोटी	153.61
38	कामता लोधी पुत्र रामदास	49.08
39	सरमन लोधी पुत्र हरप्रसाद	162.28
40	लक्ष्मन लोधी पुत्र हरप्रसाद	113.36
41	मानिकलाल लोधी पुत्र रथ्थी	68.68
42	मनोज लोधी पुत्र मानिक लाल	86.45
43	विनोद लोधी पुत्र मानिक लाल	86.26
44	घन्शू आदिवासी पुत्र भूपत	44.40
45	मुन्नीबाई आदिवासी वेवा हरप्रसाद	54.80
46	भूपत आदिवासी पुत्र पिरवा	41.00
47	चैना बाई पत्नि गोरेलाल आदिवासी	24.09

48	बालचन्द्र आदिवासी पुत्र गोरैलाल	21.12
49	काशीराम आदिवासी पुत्र पौला	79.86
50	जग्गू आदिवासी पुत्र किशोर गोरैलाल आदिवासी पुत्र जग्गू पन्नालाल आदिवासी पुत्र जग्गू जमना आदिवासी पुत्र जग्गू	102.38
51	राम प्रसाद लोधी पुत्र परमलाल	94.43
52	कोमल लोहार पुत्र रामदास घनश्याम लोहार पुत्र रामदास रामचरण लोहार पुत्र रामदास बिहारी लाल लोहार पुत्र रामदास	264.72
53	जीवन लाल लोधी पुत्र नाथूराम	62.67
54	राजाराम लोधी पुत्र विहारी	204.88
55	भैय्यन लोधी पुत्र जग्गू	164.39
56	मनोहर पुत्र भैय्यन लोधी	65.53
57	घनश्याम पुत्र गनेशी लोधी	133.75
58	चिन्तामन पुत्र गनेशी लोधी	136.75
59	रामकिशन पुत्र सुक्का लोधी एवं धर्मदास पुत्र सुक्का लोधी	117.98
60	भूपेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र बीरेन्द्र कुमार तिवारी	118.00
61	मोहन पाल पुत्र नन्दू	198.73
62	भोला पाल पुत्र जुददा	140.95
63	बालचन्द्र पुत्र कोटी लोधी	219.16
64	अंगूरी पत्नि सूरत सिंह लोधी	78.75
65	हरप्रसाद पुत्र भैय्यन लोधी	108.58
66	तुलसा बाई पुत्री हरप्रसाद लोधी	18.00
67	रामदास लोधी पुत्र लछुआ	176.45
68	दशरथ लोधी पुत्र नाथूराम लोधी	157.58
69	हुकुम लोधी पुत्र प्यारे लाल	69.45
70	रामसिंह लोधी पुत्र जीवनलाल	103.42
71	मल्दी बाई पत्नि खज्जा एवं बाबूलाल पुत्र खज्जा	40.00
72	बाबू लाल पुत्र खज्जा लोधी	87.64
73	बैनी बाई लोधी पत्नी प्यारेलाल	83.19
74	भगवान दास पुत्र प्यारेलाल लोधी	91.29
75	हीरालाल पुत्र कुन्ना लोधी हरीराम लोधी पुत्र कुन्ना लोधी	169.30
76	शिवकुमार नाई पुत्र उमराव	82.16

77	काशीराम लोधी पुत्र नौना	115.20
78	विहारी लाल पुत्र शिवदयाल लोधी	86.68
79	शिवदयाल पुत्र गनपत लोधी	18.17
80	पूला लोधी एवं शान्ति बाई पुत्री गनपत लोधी	37.35
81	ब्रजेश लोधी पुत्र शिवदयाल	71.80
82	विहारी लाल पुत्र शिवदयाल लोधी एवं ब्रजेश लोधी पुत्र शिवदयाल लोधी	31.54
83	गोकल पुत्र दुली चन्द्र लोधी मानसिंह लोधी पुत्र दुलीचन्द्र	90.66
84	हरदयाल लोधी पुत्र कामता	44.94
85	मोतीलाल लोधी पुत्र प्यारेलाल	103.55
86	गनेशी पुत्र खज्जा लोधी	109.38
87	खडी पुत्र जगन्ना लोधी	200.64
88	भुजवल लोधी पुत्र ब्रजलाल भागीरथ लोधी पुत्र ब्रजलाल भागसम	188.91
89	ब्रजलाल पुत्र जगन्ना लोधी एवं जगदीश पुत्र ब्रजलाल लोधी	114.46
90	हीरालाल पुत्र गुल्ली लोधी	189.27
91	दिवन पुत्र गुरी लोधी	110.25
92	हजारी पुत्र दिवन लोधी एवं राकेश पुत्र दिवन लोधी	127.90
93	गनेशी नाई पुत्र उमराव	89.42
94	गोकल लोधी पुत्र तुलसी एवं श्यामबाई पत्नि तुलसी	174.74
95	लखन लाल पटैरिया पुत्र स्वामी प्रसाद	100.97
96	राजू प्रसाद पुत्र राजाराम पटैरिया	120.98
97	रामेश्वर पटैरिया पुत्र रामनाथ एवं शिवप्रसाद पुत्र रामनाथ	104.63
98	बिन्दावन पटैरिया पुत्र रामनाथ	9.45
99	जगदीश प्रसाद पुत्र स्वामी प्रसाद पटैरिया	42.80
100	सरमन आदिवासी पुत्र मर्दन	31.45
101	दुड़ा आदिवासी पुत्र किशोरा जग्गू आदिवासी पुत्र किशोरा	46.80
102	आशाराम पुत्र दुड़ा आदिवासी रामकिशन पुत्र आशाराम आदिवासी	41.60

103	हरलाल पुत्र दुड़ा आदिवासी	88.60
104	गनेशी पुत्र दुड़ा आदिवासी	
105	हरीराम पुत्र गनेशी आदिवासी	20.00
106	घनश्याम पुत्र गनेशी आदिवासी	12.96
107	रामदीन पुत्र मर्दन आदिवासी	45.50
108	राममिलन आदिवासी पुत्र सरमन	26.10
109	शिवराज आदिवासी पुत्र सरमन	35.36
110	मुन्ना आदिवासी पुत्र मर्दन	38.00
111	पुनियाबाई पत्नि मर्दन आदिवासी	35.70
112	सोवरन पुत्र सरमन आदिवासी	17.51
113	गुनिया बाई पत्नि वेवा मलखान आदिवासी	50.90
114	एवं प्रीतम सौर पुत्र अच्छे लाल	
115	कामता पुत्र बुदुवा अहिरवार	46.34
116	बुदुवा पुत्र भरोसा अहिरवार	50.85
117	गिरधारी ऊर्फ लटकना पुत्र बुदुवा अहिरवार	121.19
118	हरप्रसाद पुत्र बुदुवा अहिरवार	127.45
119	दुर्जना पुत्र उमराऊवा अहिरवार	76.35
120	हीरालाल पुत्र दुर्जना अहिरवार	41.40
121	लक्ष्मन पुत्र दुर्जना अहिरवार	33.06
122	गिदधा पुत्र हल्का अहिरवार	40.29
123	बारेलाल पुत्र गिदधा अहिरवार	15.77
124	गुमना अहिरवार पुत्र हल्का अहिरवार	59.13
125	छिन्ना पुत्र काला अहिरवार	245.56
126	खिल्ला पुत्र काला अहिरवार	48.14
127	बन्दू पुत्र उददेता अहिरवार	104.79
128	गौरेलाल पुत्र उददेता अहिरवार	94.74
129	रामदास पुत्र अजुददी अहिरवार	108.89
130	हरीराम अहिरवार पुत्र किनऊवा	19.53
131	हरीराम अहिरवार पुत्र किनऊवा	
132	इमरतलाल अहिरवार पुत्र किनऊवा	41.56
133	इमरतलाल अहिरवार पुत्र किनऊवा	
134	पर्वता अहिरवार पुत्र भुमनिया	34.20
135	जुरा पुत्र चतरा अहिरवार	108.53
136	सरमन पुत्र जुरा अहिरवार	22.00
137	गोविन्दी लाल अहिरवार पुत्र जुरा	72.39
138		72.28

135	1. मानसिंह लोधी पुत्र नन्हे 2. हरीसिंह पुत्र नन्हे 3. रुपसिंह पुत्र नन्हे	174.82
136	गोरेलाल आदिवासी पुत्र रघुवा	28.00
137	बारेलाल पुत्र गोरेलाल आदिवासी	19.52
138	घनश्याम पुत्र गोरेलाल आदिवासी	45.57
139	कन्हैया अहिरवार पुत्र भुमनियां	41.77
140	राज अहिरवार पुत्र कन्हैया	10.26
141	भुरिया बाई पत्नि फुलूवा अहिरवार	29.54
142	लक्ष्मण अहिरवार पुत्र भैरों अहिरवार	71.94
143	राकेश पुत्र बाबूलाल अहिरवार	172.47
144	पार्वती पत्नि बाबूलाल अहिरवार	59.40
145	सुकलाल पुत्र पंचा अहिरवार	44.43
146	पंचा अहिरवार पुत्र मकुंदा	103.57
147	तुलसीदास अहिरवार पुत्र भैरों एवं हीरालाल पुत्र भैरों	16.68
148	तुलसीदास अहिरवार पुत्र भैरों	22.71
149	शुक्ता अहिरवार पुत्र भैरों	17.13
150	हीरालाल अहिरवार पुत्र भैरों	20.21
151	हरबाई पत्नि भैरों अहिरवार	98.21
152	रामलाल पुत्र खुमना अहिरवार	67.32
153	खज्जू हल्लू रामलाल अर्जुन पुत्र गण खुमना अहिरवार	30.42
154	खज्जू पुत्र खुमना अहिरवार	88.22
155	अर्जुन पुत्र खुमना अहिरवार	29.70
156	हल्लू पुत्र खुमना अहिरवार	63.44
157	जालम पुत्र भुमनियां अहिरवार	111.15
158	नत्थू अहिरवार पुत्र किनौवा	24.36
159	कुटू अदिवासी पुत्र रघुवा	42.92
160	अखिलेश पटैरिया पुत्र विद्रावन	22.68
161	शिव कुमार नाई पुत्र उमराव गनेशी नाई पुत्र उमराव विनोद नाई पुत्र उमराव प्रेम नारायाण नाई पुत्र उमराव	50.80
162	मोहन लोधी पुत्र परमलाल कामता लोधी पुत्र परमलाल रामप्रसाद लोधी पुत्र परमलाल	36.80
163	गोरेलाल पुत्र खज्जा लोधी	33.00
164	भजन लाल लोधी पुत्र गोरेलाल	26.49
	योग-	13752.90

(2) बानसुजारा बाँध परियोजना के अंतर्गत डूब में आने से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय सू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ामलहरा में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2016-17 बड़ामलहरा चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि/मकान/परिसम्पत्तियों धारकों की अंकित मकान/परिसम्पत्ति की बानसुजारा बाँध परियोजना के अंतर्गत दूब में आने से राज्य सरकार का सम्बंधित विभाग/उपक्रम मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2/2014ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को मकान/परिसम्पत्ति आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 की धारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकान/परिसम्पत्ति की उपरोक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है:-

(1) मकान/परिसम्पत्ति का विवरण:-

(क) जिला- छत्तरपुर
(ख) तहसील- घुवारा
(ग) ग्राम- सरकना
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 21159.23 वर्ग मी.

स.क्र.	आबादी खसरा नम्बर	मकान स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित मकान का क्षेत्रफल वर्ग मी० में
1	2	3	4
ग्राम- सरकना (मजरा-अछेलनखेरा)			
1	1110, 1234/1	रेडा यादव पुत्र प्यारे लाल	57.28
2		नत्थू यादव पुत्र रेडा	39.50
3		भूपत यादव पुत्र रेडा	27.05
4		मकुन्दी यादव पुत्र प्यारे लाल	113.28
5		शिमबू यादव पुत्र प्यारे लाल	32.12
6		हरीशचंद्र यादव पुत्र मकुन्दी	39.80
7		गनेशी यादव पुत्र प्यारे लाल	57.50
8		जगदीश यादव पुत्र प्यारे लाल	91.50
9		चुदू यादव पुत्र बंदू	116.45
10		जुगलकिशोर पुत्र चुदू	80.52

11	परमलाल यादव पुत्र बन्दू	73.05
12	मुलायम सिंह यादव पुत्र परमलाल	44.69
13	हरदास यादव पुत्र भरोसे	45.37
14	हरीराम यादव पुत्र हरदास	136.35
15	मोती लाल यादव पुत्र किशोरी, धनीराम यादव पुत्र किशोरी भाग सम	410.28
16	लल्ला यादव पुत्र बालचंद्र	129.36
17	सुन्दर यादव पुत्र भरोसा	134.96
18	सुषमा यादव वेवा रामेश्वर	103.22
19	जागेश्वर यादव पुत्र सुन्दर	111.71
20	कल्लू यादव पुत्र नदुआ	104.34
21	फूलसिंह यादव पुत्र कल्लू	51.69
22	सीताराम यादव पुत्र कल्लू	58.27
23	मुन्नी यादव पुत्र नदुआ	31.44
24	नदुआ पुत्र सश्मन	27.28
25	दुर्गादास यादव पुत्र मुन्नीलाल	26.98
26	मानसिंह यादव पुत्र मुन्नीलाल	46.50
27	राजकुमार यादव पुत्र मुन्नीलाल	54.38
28	गोविंदी यादव पुत्र नदुआ	73.05
29	हरिसिंह यादव पुत्र गोविन्दी	42.57
30	सजारास यादव पुत्र गोविंदी	54.66
31	कलियाबाई यादव पत्नि गोरेलाल	53.46
32	बृजलाल यादव पुत्र बन्दू	60.01
33	ठाकुरदास यादव पुत्र बृजलाल	118.16
34	काशीराम यादव पुत्र बृजलाल	84.35
35	महादेव यादव पुत्र हरदास	73.65
36	इमरत यादव पुत्र महादेव	63.63
37	तुलसीदास यादव पुत्र महादेव	34.13
38	प्रेमलाल यादव पुत्र पंखे	72.91
39	रामसहाय यादव पुत्र पंखे	53.10
40	श्रीराम यादव पुत्र प्रेमलाल	82.40
41	राजेश यादव पुत्र शिब्बा	84.11
42	स्वामी यादव पुत्र भबूदी	20.25
43	मुकेश यादव पुत्र स्वामी	35.28
44	दिनेश यादव पुत्र स्वामी	9.13
45	इंद्रपाल यादव पुत्र स्वामी	27.28
46	कुंजीलाल यादव पुत्र भबूदी	96.36

47		भगवानदास यादव पुत्र परमलाल	67.74
48		कमलेश यादव पुत्र चुटू	39.92
ग्राम- सरकना (मजरा-मजखेरा)			
49	220 / 5	किशोरी लोधी पुत्र रमलिया	93.41
50		हल्के लोधी पुत्र रमलिया	26.05
51		हरबू पति रमलिया लोधी	23.98
52		काशीराम लोधी पुत्र रमलिया	69.84
53		पूरन लोधी पुत्र राजाराम, चतामन लोधी पुत्र राजाराम हरगोविंद लोधी पुत्र राजाराम	122.63
54		ऊदल लोधी पुत्र भुज्जू	155.71
55		जगन्नाथ लोधी पुत्र कलुआ	25.20
56		कलुआ लोधी पुत्र भुज्जू	145.04
57		हरप्रसाद लोधी पुत्र कलुआ	83.03
58		बहोरा लोधी पुत्र भुज्जू	113.46
59		तुलसी दास लोधी पुत्र भगवानदास ठाकुरदास लोधी पुत्र भगवानदास संतोष कुमार लोधी पुत्र भगवानदास	87.82
60		ठाकुरदास लोधी पुत्र भगवानदास	35.16
61		रामप्रसाद लोधी पुत्र काशीराम	20.80
62		भैयालाल खंगार पुत्र महुआ	24.19
63		रंतू खंगार पुत्र महुआ	123.42
64		भागीरथ खंगार पुत्र रन्तू	42.84
65		कमला खंगार पुत्र महुआ	33.97
66		भगवानदास लोधी पुत्र प्यारे	21.25
67		रूप सिंह लोधी पुत्र झल्लू	79.27
68		हल्का लोधी पुत्र कामते	79.12
69		धरम लोधी पुत्र कामते	54.74
70		छोटेलाल लोधी पुत्र धरम	15.39
71		भागीरथ लोधी पुत्र कामते	90.79
72		कामते लोधी पुत्र प्यारे	25.18
73		कोमल लोधी पुत्र झल्लू	80.89
74		झल्लू लोधी पुत्र प्यारे	16.34
75		दयाराम लोधी पुत्र झल्लू	60.75
76		राजाराम लोधी पुत्र झल्लू	70.75
77		विद्रावन लोधी पुत्र झल्लू	69.56

78		सोवरन लोधी पुत्र हीरा लाल	70.93
79		संतोष खंगार पुत्र भैया लाल	74.88
80		मुन्ना लाल खंगार पुत्र महुआ	82.55
81		देवीदास खंगार पुत्र कमला राजू खंगार पुत्र कमला भाग सम	90.57
82		हरीराम खंगार पुत्र रतू	74.48
ग्राम- सरकना (मजरा-बाबाखेरा)			
83	1234 / 1	हरदास उर्फ फूला यादव पुत्र मलखू	64.68
84		पुनियां बाई यादव वेवा मलखू	7.93
85		अखिलेश यादव पुत्र हरदास	46.65
86		राजेश यादव पुत्र मलखू	46.36
87		दिनेश यादव पुत्र मलखू	32.94
88		चन्द्रभान यादव पुत्र दादा	88.11
89		शकेश यादव पुत्र चन्द्रभान	70.52
90		राम रतन यादव पुत्र चन्द्रभान	82.51
91		वाले यादव पुत्र रिल्ली	22.80
92		जुगल यादव पुत्र दादा	73.21
93		रूपेश यादव पुत्र जुगल	85.17
94		महेन्द्र यादव पुत्र जुगल	90.52
95		सोवत यादव पुत्र सुकैया	124.15
96		रामकृपाल यादव पुत्र सोवत	70.55
97		देवेन्द्र यादव पुत्र सोवत	40.06
98		भैयाराम यादव पुत्र बल्लुआ	80.15
99		रमेश यादव पुत्र बल्लुआ	42.35
100		पुष्पेन्द्र यादव पुत्र रमेश	47.84
101		वीरन यादव पुत्र रमेश	58.95
102		रविद्र यादव पुत्र रमेश	61.62
103		बल्लुआ यादव पुत्र दिविया	21.28
104		लल्लू यादव पुत्र बल्लुआ	153.96
105		सूका यादव पुत्र मलखू	57.33
106		गोपाल यादव पुत्र सूका	43.15
107		राजेन्द्र यादव पुत्र सूका	66.05
108		रघुनाथ यादव पुत्र विन्दावन	81.99
109		गनेशी यादव पुत्र विन्दावन	21.72
110		मोनलाल यादव पुत्र विन्दावन	46.36
111		मोहमलाल यादव पुत्र विन्दावन	61.57
112		मुलायम सिंह यादव पुत्र मोहन लाल	21.37

113		छीता यादव वैवा विन्द्रावन	21.37
114		जगन यादव पुत्र विन्द्रावन	20.32
115		हीरा लाल यादव पुत्र अपरवल	56.61
116		बलराम यादव पुत्र हीरालाल	71.95
117		हरीराम यादव पुत्र राम चरन ठाकुरदास यादव पुत्र हरीराम जगदीश यादव पुत्र हरीराम रामलाल यादव पुत्र हरीराम लक्ष्मण यादव पुत्र हरीराम	329.61
118		सिया बाई यादव पुत्री घनश्याम	173.86
119		निरपत यादव पुत्र लक्ष्मण	45.14
ग्राम- सरकना (मजरा-हीरापुर)			
120	308, 309, 310, 311, 312, 435/1	जुगलकिशोर अहिरवार पुत्र बुद्धा	24.34
121		रामप्रकाश अहिरवार पुत्र बुद्धा	29.26
122		झुत्ता लाल अहिरवार पुत्र बुद्धा	21.56
123		करिया अहिरवार पुत्र हल्लू	129.95
124		भगवानदास अहिरवार पुत्र मनुआ	87.34
125		मोहन अहिरवार पुत्र बुद्धा	44.30
126		जमुना अहिरवार पुत्र बुद्धा	41.53
127		चुन्नी अहिरवार पुत्र बुद्धा	23.71
128		बुद्धा अहिरवार पुत्र जोरावर	74.39
129		हरदास अहिरवार पुत्र भरवा राजेन्द्र अहिरवार पुत्र हरदास चिन्ता अहिरवार पुत्र हरदास	83.51
130		जन्तू अहिरवार पुत्र हल्लू घन्थू अहिरवार पुत्र हल्लू भागसम	242.29
131		जगदीश अहिरवार पुत्र भगुन्ता	68.30
132		लक्ष्मण अहिरवार पुत्र भगुन्ता	50.81
133		कमला अहिरवार पुत्र लम्पू	74.02
134		रामदास अहिरवार पुत्र कमला	45.15
135		मनोहर अहिरवार पुत्र कमला	52.58
136		ऊदल अहिरवार पुत्र मलखू	62.08
137		कोमल अहिरवार पुत्र मलखू	90.63
138		मुन्नी लाल अहिरवार पुत्र कन्हैया लाल	426.63
139		रामप्रसाद अहिरवार पुत्र किशर	32.23
140		दिनेश अहिरवार पुत्र किशर	47.42

141	खज्जू अहिरवार पुत्र कन्हैयालाल प्रेमलाल पुत्र खज्जू भाग सम	114.07
142	जगन्नाथ अहिरवार पुत्र खज्जू	87.57
143	मुकेश अहिरवार पुत्र चरण लाल	67.44
144	रामस्वरूप अहिरवार पुत्र कुरू	59.88
145	खरगी अहिरवार बेबा चरण लाल	50.97
146	गौरिलाल अहिरवार पुत्र कुरू	89.75
147	हीरालाल अहिरवार पुत्र हल्लू	90.68
148	पूरन अहिरवार पुत्र मतुआ	133.29
149	प्यारे लाल अहिरवार पुत्र दल्लू	144.96
150	जगमोहन अहिरवार पुत्र हल्लू	46.73
151	विज्जू अहिरवार पुत्र परसादी	123.80
152	परसू अहिरवार पुत्र दुड़ा	100.76
153	नन्दलाल अहिरवार पुत्र दुड़ा	110.03
154	परसदिया अहिरवार पुत्र झलुआ	168.88
155	प्यारे लाल अहिरवार पुत्र झलुआ	101.81
156	दर्लुआ अहिरवार पुत्र कन्हैया	84.00
157	हरिसम अहिरवार पुत्र दर्लुआ	102.97
158	परमलाल अहिरवार पुत्र दर्लुआ	27.64
159	रामसेवक अहिरवार पुत्र किशार	24.86
160	तिजुआ अहिरवार पुत्र दौलता	176.78
161	थुबना अहिरवार पुत्र हल्का	16.18
162	गंगुआ अहिरवार पुत्र हल्का	36.83
163	हिम्मत अहिरवार पुत्र गंगुआ	59.95
164	कालीचरण अहिरवार पुत्र गंगुआ	100.45
165	लम्बरदार अहिरवार पुत्र गंगुआ	24.72
166	गोविंद अहिरवार पुत्र गंगुआ	24.72
167	खुमना अहिरवार पुत्र झलुआ	106.33
168	तिलैया अहिरवार पुत्र मलखू	33.30
169	जगदीश अहिरवार पुत्र जुजुआ	113.07
170	रमसिंगा अहिरवार पुत्र जुजुआ	128.91
171	भगवानदास अहिरवार	119.14
172	भूरा अहिरवार पुत्र रामचरण रामचरण पुत्र गनुआ	97.00
173	भैय्यन बंशकार पुत्र गुमना	8.19
174	नुन्नु बंशकार पुत्र भैय्यन	8.19
175	गौरीशंकर बंशकार पुत्र भैय्यन	8.19

176	राजकुमार बंशकार पुत्र भैरव	8.19
177	किशोरा बंशकार पुत्र गुमना	11.22
178	बंदु बंशकार पुत्र किशोरा	17.38
179	जीवन बंशकार पुत्र बंदू	11.22
180	जानकी खंगार पुत्र धूराम	43.26
181	जमना खंगार पुत्र धूराम	54.31
182	राजेश खंगार पुत्र जमना	33.66
183	खिलन खंगार पुत्र धूराम	76.85
184	लखन उर्फ शंकर खंगार पुत्र धूराम	69.18
185	ठाकुरदास असादी पुत्र दयाराम	65.50
186	गोरेलाल लोधी पुत्र गोकल	198.34
187	ऊदल लोधी पुत्र गोकल	48.75
188	राजाराम लोधी पुत्र ऊदल	37.60
189	दुर्गादास लोधी पुत्र ऊदल	115.94
190	प्रेमचंद लोधी पुत्र ऊदल	80.84
191	हरदास लोधी पुत्र बसोरा	59.95
192	भागीरथ लोधी पुत्र बसोरा	70.82
193	ब्रजलाल लोधी पुत्र बसोरा	70.72
194	मोतीलाल लोधी पुत्र बसोरा	72.60
195	हीरालाल खंगार पुत्र सन्नू	288.56
196	हरीराम खंगार पुत्र मिरधारी	104.03
197	सूरज खंगार पुत्र हरीराम	32.40
198	विन्दावन खंगार पुत्र भभूदी	55.23
199	हरलाल खंगार पुत्र मिरधारी	138.30
200	राकेश खंगार पुत्र भभूदी	47.09
201	भभूदी खंगार पुत्र सन्नू	89.38
202	नंदकिशोर खंगार पुत्र भभूदी	70.24
203	जगना खंगार पुत्र नाथूराम	87.71
204	कोमल खंगार पुत्र नाथूराम	65.68
205	शांति बाई खंगार पति नाथूराम	35.49
206	कोमल खंगार पुत्र नाथूराम	90.69
207	नदुआ लोधी पुत्र हलका	82.95
208	सूरखा लोधी पुत्र हलका	65.65
209	हलका लोधी पुत्र अदधू	24.35
210	पुष्पेन्द्र लोधी पुत्र हलका	87.06
211	काशीराम लोधी पुत्र हलका	75.88
212	धनीराम लोधी पुत्र हलका	55.87
213	वीरन लोधी पुत्र धनीराम	45.67

214	हरदास लोधी पुत्र घसीटा	203.79
215	सहुदिया लोधी पत्नि घसीटा	15.44
216	रामवगश लोधी पुत्र घसीटा	127.90
217	बहुदिया लोधी पत्नि अच्छेलाल	84.97
218	रामचरन लोधी पुत्र घसीटा	149.85
219	भगवान दास पुत्र भोलू	37.05
220	रमेश लोधी पुत्र भगवानदास	69.32
221	लम्पू डीमर पुत्र कमदुआ	109.79
222	लक्ष्मण डीमर पुत्र लम्पू	52.56
223	धनीराम लोधी पुत्र भोलू	94.66
224	करनसिंह लोधी पुत्र भोलू	135.61
225	भगुन्ता डीमर पुत्र कमतुआ	149.90
226	तेजराम डीमर पुत्र पलुआ	153.43
227	अजुददी डीमर पुत्र मनका	117.57
228	प्रकाश डीमर पुत्र अजुददी	39.92
229	सुन्ना डीमर पुत्र जलमा	102.03
230	हल्कू डीमर पुत्र जलमा	72.11
231	चैना डीमर पुत्र जलमा	101.56
232	बारेलाल डीमर पुत्र कमतुआ	61.81
233	भोलू लोधी पुत्र नवला	29.62
234	जमना लोधी पुत्र भोलू	103.63
235	प्रीतम लोधी पुत्र जमना	25.31
236	प्यारेलाल डीमर पुत्र भगुन्ता	46.92
237	हरचरन असाटी पुत्र बन्दू लक्ष्मीप्रसाद असाटी पुत्र बन्दू	193.91
238	हल्कू लोधी पुत्र जोरावल	59.95
239	इमरत लोधी पुत्र हल्कू	82.42
240	लक्ष्मण लोधी पुत्र हल्कू	54.35
241	अनन्दी लोधी पुत्र हलकू	48.31
242	लखन लाल असाटी पुत्र दयाराम जगदीश असाटी पुत्र दयाराम मुन्नी लाल असाटी पुत्र दयाराम	152.40
243	धूराम लोधी पुत्र महादेव	150.99
244	संतोष असाटी पुत्र हरप्रसाद श्यामलाल असाटी पुत्र हरप्रसाद रामप्रकाश असाटी पुत्र हरप्रसाद	116.98
245	रामसेवक असाटी पुत्र सुखदीन	29.23
246	भगवानदास असाटी पुत्र सुखदीन	44.96
247	रामस्वरूप असाटी पुत्र सुखदीन	24.88
248	गंगाशरम असाटी पुत्र सुखदीन	20.94
249	राकेश असाटी पुत्र सुखदीन	47.69

250	प्रेमनारायण असादी पुत्र	25.71
251	मोती डीमर पुत्र टेड़ा टेड़ा डीमर विज्जू	86.25
252	चैना डीमर पुत्र जलमा टेड़ा डीमर पुत्र विज्जू हल्कू डीमर पुत्र बिज्जू कमलेश डीमर पुत्र छोटेलाल जनकिया डीमर पुत्र विज्जू परमा डीमर पुत्र विज्जू	29.05
253	हल्कू डीमर पुत्र विज्जू	91.09
254	कमलेश डीमर पुत्र छोटेलाल	16.77
255	परमा डीमर पुत्र विज्जू	23.46
256	परमा डीमर पुत्र विज्जू घन्सू डीमर पुत्र परमा	107.08
257	कड़ोरा डीमर पुत्र धरमुआ	32.76
258	तुलसी डीमर पुत्र कड़ोरा	84.24
259	धांधू डीमर पुत्र मुनका	127.14
260	जगना डीमर पुत्र मुनका	90.60
261	जनकिया डीमर पुत्र विज्जू मोनलाल डीमर पुत्र जनकिया	195.10
262	कमलेश डीमर पुत्र छोटेलाल राजेश डीमर पुत्र छोटेलाल	92.18
263	चैना डीमर पुत्र विज्जू	76.67
264	गोविन्दी डीमर पुत्र चैना	50.82
265	गोरेलाल डीमर पुत्र चैना	42.68
266	मूलचन्द डीमर पुत्र चैना	19.29
267	प्रेमलाल डीमर पुत्र चैना	76.05
268	मुन्ना डीमर पुत्र टेड़ा	88.95
269	धरम डीमर पुत्र टेड़ा	100.67
270	काशीराम डीमर पुत्र जगना	52.86
271	वंशी डीमर पुत्र कड़ोरा	59.64
272	पूरन डीमर पुत्र सुकईया	175.78
273	फेरन लोधी पुत्र फुन्दीलाल	252.04
274	श्रीराम लोधी पुत्र फेरन	114.45
275	रमेश लोधी पुत्र फुन्दीलाल	422.28
	योग-	21169.28

(2) बानसुजारा बाँध परियोजना के अंतर्गत डूब में आने से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ामलहरा में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 119-2017-एलए-क्र. भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 7-अ-82-16-17 खण्डवा, दिनांक 24 सितम्बर 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

(क)	जिला	:	खंडवा
(ख)	तहसील	:	पुनासा
(ग)	ग्राम	:	हनुवंतिया
(घ)	अर्जित रकबा/क्षेत्रफल	:	0.76 हैक्टेयर

अ.क्र.	कृषक / हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुशीलाबाई बेवा श्यामू ममता, बनू पुत्री श्यामू	123	1.90	0.06	0.00	0.06	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि. मी. के निर्माण हेतु
2	हीरालाल पिता मंशाराम	118/1	0.76	0.04	0.00	0.04	
3	गेंदालाल पिता मंशाराम	118/5	0.70	0.02	0.00	0.02	
4	गुलाबदास पिता दयाराम	118/4	0.10	0.02	0.00	0.02	
5	जगन्नाथ पिता सोमा	118/2	0.10	0.02	0.00	0.02	
6	साहेबलाल पिता राजाराम	118/3	0.10	0.02	0.00	0.02	
7	केलाश पिता मंशाराम	118/6	0.80	0.03	0.00	0.03	
8	पन्नालाल पिता तुलाराम	116/1	2.14	0.03	0.00	0.10	
		115/2	1.17	0.06	0.00		
		115/3	0.07	0.01	0.00		
9	अम्बाराम पिता पन्नालाल	116/3	2.00	0.01	0.00	0.01	
10	शांतिलाल पिता पन्नालाल	116/2	2.00	0.03	0.03	0.00	

11	राजकुमारी पति दरियावचंद प्रेमलता पति कमलचंद, किर्ती पति प्रदीप जेन	115/4	0.24	0.01	0.00	0.01
12	नरेन्द्र पिता नरसिंह दास चांडक	115/1	1.48	0.05	0.05	0.00
13	सोहनलाल, पन्नालाल पिता तुलाराम	114/1	0.10	0.01	0.00	0.01
14	राजय वर्मा पिता जगतनारायण	114/5	0.318	0.02	0.00	0.02
15	फरीबा बी पति रउफखान, शेख नसीर पिता शेख रशीद, मो. जुनेदुर रहमान पिता मो. रईसुरहमान, तबस्सुम फामिता खान पति सोहेल खान फुवाद शेख पिता मोहम्मद अनीस, अहमद शेख अरशद खान पिता रफीक खान मोहम्मद उबुदुरहमान पिता मो. रईसुरहमान	114/2	0.41	0.01	0.00	0.01
16	अनामिका पति अमित माहेश्वरी	114/4	0.40	0.02	0.00	0.02
17	अश्वमेघसिंह पिता प्रहलादसिंह	113	2.70	0.06	0.06	0.00
		112/2	0.40	0.03	0.03	0.00
18	कोमलसिंह पिता बलरामसिंह	112/4	0.40	0.01	0.01	0.00
		112/3	0.60	0.01	0.01	0.00
19	अमनकुमार पिता शैलेन्द्र कुमार	112/5	0.10	0.01	0.01	0.00
20	विरेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह	111/7	1.20	0.06	0.06	0.00
21	सुरेन्द्रसिंह पिता भारतसिंह	111/3	1.37	0.04	0.04	0.00
22	पंकजसिंह पिता हरिराजसिंह	110/1	2.611	0.07	0.07	0.00
कुल- कृषक 22		कुल रकबा -0.76हे. सिंचित-0.37 असिंचित- 0.39				

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्रमांक 120-2017-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 5-अ-82-16-17

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	:	खंडवा
(ख) तहसील	:	पुनासा
(ग) ग्राम	:	बांगरदा
(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल	:	1.805 हैक्टेयर

अ.कं.	कृषक / हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजेन्द्र पिता जगदीश	535/1	0.700	0.116	0.116	0.000	कार्यपालन यंत्री लोक. निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	अन्नपूर्णा बाई वि. लालसिंह	531	2.000	0.234	0.234	0.000	
3	सवाईसिंह पिता दातारसिंह	529/1	0.330	0.043	0.000	0.043	
4	जगन्नाथ पिता घुडिया, गीताबाई पति जगन्नाथ	529/2	0.330	0.024	0.024	0.000	
5	रणवीरसिंह पिता नारायणसिंह	529/3	0.330	0.049	0.000	0.049	
6	अशोक पिता विजयसिंह	529/4	0.330	0.068	0.000	0.068	
7	कलीराम पिता कन्हैया	528/3	0.220	0.024	0.000	0.024	
8	बसंतीबाई वि. छगनलाल, रामदास, दुलीचंद पिता छगनलाल, कृष्णा, गोरा, प्रेम पुत्री छगनलाल	511	0.150	0.017	0.000	0.017	
9	प्यारीबाई वि. दशरथ, दगडिया सरवण, बांगा पिता दशरथ अ.स. प्यारीबाई	512	0.020	0.004	0.000	0.004	
10	रूपल्या पिता छोटू	513	0.030	0.002	0.000	0.002	

11	सांग्या, भडक्या, बरजीर पिता कालू, सोनाबाइ वि. सिगदार, बुधडिया, नंदू मुरार, सुकराम पिता भिक्या, अनोखीबाइ पुत्री भिक्या छंदूबाई वि. भिक्या	514	0.030	0.002	0.000	0.002
12	किरतसिंह पिता ध्यानसिंह	517	0.040	0.004	0.000	0.004
13	बाबूलाल, मुन्नालाल रामचरण राधाकृष्ण पिता मुकंदसा	518	0.150	0.024	0.024	0.000
14	बंशीलाल पिता बाबूलाल	519	0.080	0.016	0.000	0.016
15	देवसिंग, गुलाबसिंह पिता छितु	520	0.020	0.002	0.000	0.002
16	उर्मिलाबाई वि० पूरणसिंह, जीवन, जयदीप पिता पूरणसिंह, गिरजा पुत्री पूरणसिंह	521/1	0.010	0.001	0.000	0.001
17	शिवनारायण पिता देवसिंह	521/2	0.020	0.002	0.000	0.002
18	जयनारायण पिता देवसिंह	521/3	0.020	0.002	0.000	0.002
19	देवसिंह, गुलाबसिंह पिता छितु, कृष्णा, जसोदा पुत्री छितु	522	0.050	0.006	0.000	0.006
		601	0.140	0.017	0.017	0.000
		योग	0.190	0.023	0.017	0.006
20	राजूबाई वि. शंकरलाल, रमा, उमा, किरण, उर्मिला पुत्री शंकरलाल, सुरज रमेश पिता शंकरलाल	523	0.080	0.011	0.000	0.011
21	हरेसिंह पिता ठाकुरसिंह, शिवसिंह पिता चंपालाल	524	0.630	0.036	0.036	0.000
22	अशोक कुमार, नितिन कुमार, शरद कुमार पिता रतिलाल रूपमतिबाई पिता रतिलाल	525	1.270	0.002	0.002	0.000
23	गोविंद पिता कोमलसिंह	448	0.470	0.004	0.004	0.000
24	अगूरीबाई वि. अनारसिंह, मुकेश, अखिलेश, पिता अनारसिंह, सीमाबाई शोभाबाई पुत्री अनारसिंह	444	0.070	0.002	0.000	0.002
		619	2.000	0.045	0.045	0.000
		620	2.82	0.084	0.084	0.000
		योग	4.89	0.131	0.129	0.002
25	कमलसिंहपिता उमरावसिंह, शैतानसिंह पिता कमलसिंह	445	0.040	0.022	0.000	0.022
26	गुलाबबाई वि. नवलसिंह, रणजीतसिंह, रंगलाल, कमलसिंह पिता नवलसिंह,	594	0.070	0.002	0.000	0.002

27	रेशमबाई वि. दगडू गिरवर, सजन पिता मोजीलाल	595	0.020	0.007	0.000	0.007
28	श्याणीबाई वि. देवाजी, राधेश्याम पिता देवाजी, झमा, उमा, पुत्री देवाजी	596	0.010	0.007	0.000	0.007
29	देउबाई रामईबाई, श्यामईबाई पुत्री सरवण, हरेसिंह पिता सरवण	597	1.750	0.048	0.048	0.000
30	कमलसिंह पिता रामाजी	434/2	1.150	0.064	0.064	0.000
31	किशोरसिंह पिता रघुनाथसिंह	437/1	3.400	0.111	0.111	0.000
32	अशोक कुमार पिता रूपसिंग	437/2	2.560	0.061	0.061	0.000
33	गणपत पिता रघुनाथसिंह	437/3	1.790	0.035	0.035	0.000
34	सीताबाई पति लक्ष्मण	600	0.050	0.016	0.000	0.016
35	सुजानसिंह पिता मानसिंह	602	0.380	0.024	0.024	0.000
36	दिलीपसिंह पिता अभयसिंह	616/1	1.980	0.046	0.046	0.000
37	सुरेन्द्र पिता कोमलसिंह	616/2	0.800	0.022	0.022	0.000
38	शिवनारायण पिता जालमसिंह	617	1.900	0.031	0.031	0.000
39	जितेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह	618	1.720	0.039	0.039	0.000
40	मोतीराम पिता नारायण	621	2.870	0.069	0.069	0.000
41	मनोहरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	622	1.150	0.040	0.040	0.000
42	भारतसिंह पिता रामसिंह	623/2	1.600	0.060	0.060	0.000
43	झबरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	623/1	0.400	0.021	0.021	0.000
44	लोकेन्द्र पिता कमलसिंह	435/3	2.040	0.038	0.038	0.000
45	शैलेन्द्र पिता कमलसिंह	435/4	2.040	0.038	0.038	0.000
46	गुलाबसिंह पिता उमरावसिंह	436/1	0.580	0.061	0.061	0.000
47	मुकेश अकलेश पिता अनारसिंह	436/2	1.300	0.038	0.038	0.000
48	पवन पिता गणपत, ना.बा. व गणपत पिता रघुनाथ	436/4	0.800	0.026	0.026	0.000
49	मुकेश पिता अनारसिंह	436/5	1.200	0.038	0.038	0.000
कुल- कृषक-49		कुल रकबा - 1.805 है. सिंचित- 1.496 है. असिंचित- 0.309 है.				

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली जिला रायसेन मध्यप्रदेश

क्र. 3339-भू-अर्जन-2017

बरेली, दिनांक 25 सितम्बर 2017

प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014. के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम — पिपलिया पुआरिया

तहसील— उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पिपलिया पुआरिया	देवाश आ. नरेन्द्र सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	443	2.278	0.025	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की पिपलिया पुआरिया माईनर नहर हेतु
2		देवेन्द्र कुमार आ. रूपसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	436	1.238	0.087		
3		यशवंत आ. रूपसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	434	0.930	0.035		
4		नारायण सिंह आ. भगवान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	437 432/1/1 438 439/1	0.607 0.425 0.283 0.749	0.160		
5		सूरज प्रसाद आ. बीरेन्द्र सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	440	1.068	0.040		

6		वीरेन्द्र सिंह आ. भगवान सिंह जाति किरार पिवासी ग्राम भू स्वामी	441/1	2.748	0.065		
7		सौरभ कुमार आ. चैनसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	498	1.477	0.050		
8		निरंजन सिंह आ. नर्मदा प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	494/1	1.715	0.100		
9		राजेन्द्र सिंह आ. भबूत सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	460	4.480	0.210		
10		जगदीश प्रसाद आ. आशाराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	384/1 384/2	1.141 2.367	0.167		
11		घनश्याम आ. लक्ष्मण सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	343	2.311	0.074		
12		जमना प्रसाद आ. नाथूराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	342/1 342/2/3	1.053 1.011	0.074		
13		प्रेमनारायण आ. हल्केवीर जाति कोटवार सेवा खातेदार	341	1.096	0.072		
14		नर्मदा प्रसाद आ. नन्हेवीर जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	320/3	0.494	0.070		
15		पार्वती वाई पत्ति राधेश्याम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	317/2	0.729	0.060		
16		राजेश कुमार आ. ग्याप्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	317/1 316/2/1	0.809 0.455	0.092		
17		रामाधार आ. ग्याप्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	316/2/2 316/1/2/1 316/1/1/1	0.198 0.639 0.413	0.070		
18		बृजेन्द्र सिंह आ. देवेन्द्र सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	315/2	1.003	0.140		
19		ताम्रध्वज आ. टीकाराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	321	1.808	0.060		

क्र. 3340-भू-अर्जन-2017

प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - पिपलिया पुआरिया

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पिपलिया पुआरिया	आयुष ना.वा.आ. नारायण सिंह सरक्षक पिता नारायण सिंह जाति किरार	507/3/2	0.821	0.043	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की सिमरिया एवं खाड़ोन माईनर नहर हेतु
2		हेमलता वाई पत्नि नारायण सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	504/2/2	1.619	0.001		
3		राजेन्द्र सिंह आ. प्रताप सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	525/2 525/3 524 521 518/2/1	0.226 0.230 0.874 1.052 0.409	0.173		
4		राधेश्याम आ. रमेश प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	519/2	1.218	0.044		
5		चैनसिंह आ. प्रताप सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	518/2/2	0.497	0.058		
6		हल्ली वाई विधवा लक्ष्मण सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भाड़ोन भू स्वामी	561	3.954	0.092		

7		रामप्रसाद आ. शंकरलाल जाति लोधी निवासी भाड़ोन भू स्वामी	562	1.011	0.089		
8		सुरेश कुमार आ. गुलाबचंद जाति साहू निवासी ग्राम भाड़ोन भू स्वामी	564	0.995	0.002		
9		दामोदर आ. हरीशंकर जाति साहू निवासी भाड़ोन भू स्वामी	565/1 565/2	1.534 0.809	0.204		
10		कृष्णा वाई पत्नि माधव सिंह जाति लोधी निवासी भाड़ोन भू स्वामी	566/2	3.431	0.103		
11		मानसिंह आ. किशोरीलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	146/1	1.821	0.001		
12		हेमलता बाई वेवा बीरेन्द्र सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	130	3.517	0.132		
13		तेजराम आ. खुमान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	133/5/1	0.174	0.031		
14		लखन सिंह आ. खुमान सिंह जाति किरार	133/5/2	0.174	0.027		
15		रवि आ. वीरेन्द्र सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	133/2	1.011	0.080		
16		रमको वाई वेवा भगवत, गंगाराम, बाबूलाल, मुन्नालाल मुन्नीबाई, गुडडी बाई आ. भगवत जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	133/6	1.231	0.027		
17		कोमल सिंह आ. खुमान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	133/7	1.053	0.026		
18		महेन्द्र सिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	133/3/2/2	0.323	0.042		
19		फूलसिंह आ. पूरन सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	133/4	1.562	0.040		
20		नत्थीबाई वि. नाथूराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	150	5.467	0.130		

क्र. 3341-भू-अर्जन-2017

प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी

सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - खुनिया

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खुनिया	भगवान सिंह आ. किशोर सिंह हि. 25 पैसे दलीप सिंह, नन्हेवीर, छोटेला आ. हरचंदी हि. 75 पैसे जाति किरार नि. बरहा कलां भू स्वामी	1	0.821	0.221	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की अलीगंज माईनर हेतु
2		भगवान सिंह आ. श्यामबिहारी जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	2	1.619	0.126		
3		देवेन्द्रसिंह आ. दलीपसिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	12/1 12/2	0.226 0.230 0.874 1.052 0.409	0.088 0.088		
4		दलीपसिंह आ. मुकन्दी जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	14 11	0.890 1.906	0.115 0.031		
5		प्रमोद आ. ओमप्रकाश जाति तेली नि. ग्राम भू स्वामी	19/1	0.417	0.030		
6		केशव प्रसाद आ. मुसददीलाल जाति साहू निवासी ग्राम भू स्वामी	19/2/2 19/3 19/6	0.186 0.417 0.656	0.088		
7		ओमप्रकाश आ. मुसददीलाल जाति साहू निवासी ग्राम भू स्वामी	19/2/1 19/5 19/4	0.373 0.656 0.652	0.109		
8		राजेश आ. गोपाल सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी	36 37	0.490 0.526	0.064		
9		सन्तोष कुमार आ. शंकर लाल जाति ब्रा. नि. ग्राम भू स्वामी	38/1	1.542	0.147		
10		चन्द्रप्रकाश आ. शंकरलाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी	38/2	1.173	0.105		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. तोमर, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 9351-भू-अर्जन-2016-2017-प्रकरण क्रमांक 54-अ-82-2016-17

धार, दिनांक 20 जून 2017

::प्रारंभिक अधिसूचना::

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में बाकानेर-अजन्दा-जोतपुर-गणपुर मार्ग के निर्माण अन्तर्गत ग्राम देवगढ़ तहसील मनावर जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) के धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम देवगढ़		तहसील- मनावर जिला धार		
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	बाकानेर-अजन्दा-जोतपुर-गणपुर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने से	0.375	0.309	0.684
	योग	0.375	0.309	0.684

अनुसूची (2)

बाकानेर-अजन्दा-जोतपुर-गणपुर मार्ग के निर्माण अन्तर्गत ग्राम देवगढ़ तहसील मनावर की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	राधेश्याम पिता सुक्या जाति कुलमी निवासी ग्राम देवगढ़	126/3	0.000	1.338	1.338	0.000	0.077	0.077
2	श्रीराम मन्दिर भागेली व्यवस्थापक कलेक्टर जिला धार	125	0.000	1.484	1.484	0.000	0.125	0.125
3	मोतीलाल पिता सीताराम जाति कुलमी निवासी ग्राम देवगढ़	124/1	0.000	0.340	0.340	0.000	0.013	0.013

4	राजाराम पिता सीताराम जाति कुलमी निवासी ग्राम देवगढ़	123/1	0.000	0.254	0.254	0.000	0.080	0.080
5	हिरालाल पिता सीताराम जाति कुलमी निवासी ग्राम देवगढ़	105/1	0.345	0.000	0.345	0.050	0.000	0.050
6	शोभाराम पिता रुखड़ जाति कुलमी निवासी ग्राम देवगढ़	105/2/क /1/1	0.000	0.148	0.148	0.000	0.005	0.005
7	रमेश पिता रुखड़ जाति कुलमी निवासी ग्राम देवगढ़	105/2/क /1/2	0.000	0.112	0.112	0.000	0.005	0.005
8	दिनेश पिता रुखड़ जाति कुलमी निवासी ग्राम देवगढ़	105/2/क /1/3	0.000	0.112	0.112	0.000	0.004	0.004
9	सुधीर पिता रणछोड़ किरणबाई पति स्व. रणछोड़ जाति कुलमी निवासी ग्राम देवगढ़	105/2/क /2	0.430	0.000	0.430	0.021	0.000	0.021
10	मधुसूदन पिता मेघाजी जाति कुलमी निवासी ग्राम देवगढ़	190/1/2	2.708	0.000	2.708	0.017	0.000	0.017
11	सविताबाई पति हरीओम जाति कुलमी निवासी ग्राम देवगढ़	157/1/1	2.394	0.000	2.394	0.245	0.000	0.245
12	जयमाला पति नारायण जाति कुलमी निवासी ग्राम देवगढ़	157/2	1.306	0.000	1.306	0.042	0.000	0.042
	योग:-		7.183	3.788	10.971	0.375	0.309	0.684

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 6013-रीडर-भू-अर्जन-2017

बड़वानी, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

कलेक्टर रा.प्र.क्र.—02 ए-82-2017-18

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा की धनोरा माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-धनोरा तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी में 0.344 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 0.85 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा की धनोरा माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है।

ए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा की धनोरा माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-धनोरा तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	41/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.195 J	महेश पिता रामा जाति अहीर निवासी-धनोरा
2	74/3 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.149 ✓	ओमप्रकाश, हेमन्तकुमार, भगवतीलाल पिता रामेश्वर अ पा क कलाबाई व कलाबाई बेवा रामेश्वर जाति बलाई निवासी-धनोरा
	योग			0.344 ✓	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 6014-रीडर-भू-अर्जन-2017

बड़वानी, दिनांक 4 अक्टूबर 2017
कलेक्टर रा.प्र.क्र.—01 ए-82-2017-18**प्रारंभिक अधिसूचना****(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर तलुन वितरण शाखा की उटावद माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-उटावद तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी में 1.968 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 4.86 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :-अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर तलुन वितरण शाखा की उटावद माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है।

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर तलुन वितरण शाखा की उटावद माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-उटावद तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	36/6	भूस्वामी	निजी भूमि	0.198	कैलाश पिता दित्या भारुड निवासी-उटावद
2	36/7	भूस्वामी	निजी भूमि	0.120	जगदीश पिता ओंकारजी कुमावत, जाति मारु, निवासी-ग्राम

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
3	36 / 8	भूस्वामी	निजी भूमि	0.198	जगदीश पिता ओंकारजी कुमावत, जाति मारु, निवासी-ग्राम
4	37 / 2 39 / 2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.194	रमेश पिता भीमा जाति अहिर निवासी-बोरलाय
5	42 / 1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.500	रमेश पिता भील्या जाति मारु निवासी-उटावद
6	42 / 2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.212	तुलसीराम पिता भील्या जाति मारु निवासी-उटावद
7	43 / 5	भूस्वामी	निजी भूमि	0.030	मोहन, हरीराम पिता भीमा जाति अहिर निवासी-पीपरी
8	56 / 1 / 1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.104	टीकम पिता हिरा जाति मारु निवासी-उटावद
9	56 / 2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.110	गबरू पिता भगवान जाति मारु निवासी-उटावद
10	58 / 1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.075	बिनाबाई पति उँकार जाति नाई निवासी-धनोरा
11	58 / 2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.030	सुरेश पिता नत्थु जाति कुलमी निवासी-ग्राम
12	58 / 6	भूस्वामी	निजी भूमि	0.142	मुकेश पिता उँकार जाति नाई निवासी-धनोरा
13	58 / 9	भूस्वामी	निजी भूमि	0.055	कैलाश पिता उँकार जाति नाई निवासी-धनोरा
	योग			1.968	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

२.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 15-12-2017-सात-शाखा 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित गाँवों के लिये, उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए :—

अनुसूची

तहसील आरौन, जिला गुना

क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक सहित गाँवों के नाम	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
01	01. मूल ग्राम-कुसमान 02. नवीन ग्राम-खिरिया बंजारा प.ह.नं. 18.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला गुना,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 15-12-2017-सात- शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-12-2017-सात- शा. 6, दिनांक 4 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओग्रे, उपसचिव.

Bhopal, the 4th October 2017

No. F. 15-12-2017-VII-Sec.6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof :—

SCHEDULE

Tahsil-Sheopur, District-Sheopur

Serial No.	Name of village(s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
01	01. Original Village-Kushman 02. New Village -Khiriya banjara, P.H.No. 18.	Superintendent of Land Records, (regular), District -Guna.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. 2349-2785-2017-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (सहपठित नियम 2016) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिए किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए पदांकित करता है:—

अनुसूची

क्र.	जिले का नाम	सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)
1.	इंदौर	1. डॉ. चेना त्रिवेदी, आरक्षित (महिला) 2. डॉ. नितिन बंलवंत शुक्ला, अनारक्षित

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2017

क्र. 2373-2786-2017-प्रचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

अनुसूची

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	अध्यक्ष/सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग (3)
1	इंदौर	1. सु.श्री माया पाण्डे, अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. श्रीमती सुषमा त्रिवेदी, सदस्य (महिला) 3. श्री अनूप कुमार सिंघल, सदस्य (अनारक्षित) 4. श्रीमती जैमिनी वर्मा, सदस्य (अनारक्षित) 5. श्रीमती कीर्ति तिवारी, सदस्य (अनारक्षित)
2	धार	1. श्रीमती चेतना मोहन राठौर, सदस्य (अनारक्षित)
3	अलीराजपुर	1. श्री सुधीर जैन, अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. सुश्री धर्मेन्द्रा ओझा, सदस्य (महिला) 3. श्रीमती रंजना बाघेला, सदस्य (अनारक्षित) 4. श्री बेस्ता खेलिया, सदस्य (अनारक्षित) 5. श्री नारायण राठौर, सदस्य (अनारक्षित)
4	बुरहानपुर	1. श्रीमती बेला तारकस, सदस्य (अनारक्षित) 2. श्री संदीप शर्मा, सदस्य (अनारक्षित)
5	बड़वानी	1. सुश्री जया शर्मा, सदस्य (अनारक्षित)
6	छतरपुर	1. श्री शिवकुमार खरे, अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. श्रीमती सुशीला सोनी, सदस्य (महिला) 3. श्री आनंद कुमार, सदस्य (अनारक्षित) 4. श्रीमती मीरा सिंह, सदस्य (अनारक्षित) 5. श्री अनिल कुमार बरसैया, सदस्य (अनारक्षित)
7	पन्ना	1. श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य (अनारक्षित)
8	ग्वालियर	1. डॉ. कमल कुमार दीक्षित, अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. श्रीमती स्वराज माथुर, सदस्य (महिला) 3. श्री किशनलाल हिण्डोलिया, सदस्य (अनारक्षित) 4. श्री दिनेश कुमार शर्मा, सदस्य (अनारक्षित) 5. श्री रणविजय सिंह, सदस्य (अनारक्षित)
9	दतिया	1. श्रीमती कृष्णा कुशवाहा, सदस्य (अनारक्षित)
10	विदिशा	1. श्री संजीव कुमार जैन, अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. श्रीमती दीप्ति खरे, सदस्य (महिला) 3. श्री हजारीलाल पाटकर, सदस्य (अनारक्षित) 4. श्री मनु श्रीवास्तव, सदस्य (अनारक्षित) 5. श्री मुकेश ताम्रकार, सदस्य (अनारक्षित)

(1)	(2)	(3)
11	सीहोर	1. श्री अनिल सक्सेना, सदस्य (अनारक्षित)
12	राजगढ़	1. श्रीमती स्मिता शुक्ला, सदस्य (अनारक्षित)
13	रीवा	1. श्रीमती प्रवीण मिश्रा, अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. श्रीमती राखी खरे, सदस्य (महिला) 3. श्रीमती ममता मिश्रा, सदस्य (अनारक्षित) 4. श्री विक्रान्त द्विवेदी, सदस्य (अनारक्षित) 5. श्री सुनील कुमार द्विवेदी, सदस्य (अनारक्षित)
14	सीधी	1. श्री अजीत कुमार द्विवेदी, सदस्य (अनारक्षित)
15	जबलपुर	1. डॉ. मनीष पाण्डेय, अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. सुश्री मेघा पंवार, सदस्य (महिला) 3. कुमारी नीतू पाण्डे, सदस्य (अनारक्षित) 4. डॉ. गोवर्धन नामदेव, सदस्य (अनारक्षित) 5. श्रीमती सरोज तिवारी, सदस्य (अनारक्षित)
16	नरसिंहपुर	1. श्रीमती मीना जैन, अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. श्रीमती जयंती जया शर्मा, सदस्य (महिला) 3. श्री रमाकांत दीक्षित, सदस्य (अनारक्षित) 4. श्रीमती गुलाब गुप्ता, सदस्य (अनारक्षित) 5. श्री इन्द्रकुमार गिरी, सदस्य (अनारक्षित)
17	सिवनी	1. श्रीमती आरजू विश्वकर्मा, अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. श्रीमती हेमलता जैन, सदस्य (महिला) 3. डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव, सदस्य (अनारक्षित) 4. श्रीमती रागिनी तिवारी, सदस्य (अनारक्षित) 5. श्री रामकुमार चतुर्वेदी, सदस्य (अनारक्षित)
18	बैतूल	1. श्री प्रशांत मांडवीकर, अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. श्रीमती हेमलता कुम्भारे, सदस्य (महिला) 3. श्री संजय शुक्ला, सदस्य (अनारक्षित) 4. श्रीमती रश्मि साहू, सदस्य (अनारक्षित) 5. मो. इरशाद, सदस्य (अनारक्षित)
19	मुरैना	1. श्री अमित जैन, अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. श्रीमती वंदना मिश्रा, सदस्य (महिला) 3. श्रीमती अरूणा छारी, सदस्य (अनारक्षित) 4. श्री मनोज अग्रवाल, सदस्य (अनारक्षित) 5. श्री भीकमसिंह तोमर, सदस्य (अनारक्षित)
20	शाजापुर	1. श्री हरिसिंह धनगर, सदस्य (अनारक्षित)
21	शहडोल	1. श्रीमती दुर्गा पंवार, अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. श्रीमती मेघा पवार, सदस्य (महिला) 3. श्रीमती राखी शर्मा, सदस्य (अनारक्षित) 4. श्री विनोद कु. तिवारी, सदस्य (अनारक्षित) 5. डॉ. जयकृष्ण तिवारी, सदस्य (अनारक्षित)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 सितम्बर 2017

संशोधन

पत्र क्र. 1647-भू-अर्जन-2017-पत्र क्र. 935-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—ग्राम-शुभनाथ, तहसील त्योंथर, जिला रीवा की भू-अर्जन अधिनियम, की धारा 19 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 9 जून 2017 के पृष्ठ क्रमांक 3703 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. अतः प्रकाशित घोषणा में अनुसूची (1) के पद 1 में वर्णित भूमि में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ			संशोधित सही प्रविष्टियाँ		
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा		खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि		निजी भूमि	शासकीय भूमि
222	0.007	—	222	0.007	—
223	0.232	—	233	0.232	—
	योग . .	<u>0.239</u>		योग . .	<u>0.239</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 5 अगस्त 2017

प्र. क्र. 0017-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) ग्राम—बलेड़ी
(घ) अर्जित रकबा—हेक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
9.116	8.563	17.679

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

(1)	(2)	(3)	(4)
खसरा क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
568	0.481	0.000	0.481
572	0.000	0.021	0.021
567	0.261	0.000	0.261
566	0.000	0.338	0.338
565	0.000	0.084	0.084
564	0.000	0.081	0.081
563	0.377	0.000	0.377
552	0.000	0.050	0.050
551	0.000	0.428	0.428
553	0.073	0.000	0.073
554	0.176	0.000	0.176
549	0.282	0.000	0.282
550	0.125	0.000	0.125
195	0.000	0.673	0.673
194	0.000	0.336	0.336
188	0.000	0.230	0.230
187/1	0.064	0.000	0.064
187/2	0.174	0.000	0.174
186	0.000	0.303	0.303
155	0.133	0.000	0.133

(1)	(2)	(3)	(4)
156	0.143	0.000	0.143
157	0.343	0.000	0.343
158	0.000	0.320	0.320
159	0.077	0.000	0.077
140	0.774	0.000	0.774
141	0.272	0.000	0.272
139	0.809	0.000	0.809
135	0.199	0.000	0.199
136	0.230	0.000	0.230
132	0.119	0.000	0.119
129	0.250	0.000	0.250
127	0.092	0.000	0.092
54	0.091	0.000	0.091
56/2	0.000	0.709	0.709
56/3	0.000	0.370	0.370
56/4	0.262	0.000	0.262
56/1	0.084	0.000	0.084
58/1	0.000	0.521	0.521
57/1	0.250	0.000	0.250
57/2	0.000	0.245	0.245
59	0.098	0.000	0.098
52	0.068	0.000	0.068
39	0.024	0.000	0.004
40	0.807	0.000	0.807
41/1	0.100	0.000	0.190
41/2	0.040	0.000	0.040
36	0.000	0.196	0.196
27/1	0.150	0.000	0.150
27/2	0.000	0.150	0.150
35	1.030	0.000	1.030
30	0.181	0.000	0.181
28	0.191	0.000	0.191
24	0.000	0.604	0.604
22	0.000	0.742	0.742
21	0.000	0.146	0.146
20	0.000	0.380	0.380
19	0.086	0.000	0.086
18	0.000	0.083	0.083
15	0.000	0.356	0.356
16/मिन-1	0.073	0.000	0.073
16/मिन-2	0.000	0.080	0.080
16/मिन-3	0.000	0.060	0.060
16/मिन-4	0.000	0.060	0.060

(1)	(2)	(3)	(4)
16/मिन-5	0.000	0.080	0.080
16/मिन-6	0.000	0.154	0.154
571/3	0.000	0.820	0.820
योग . .	9.116	8.563	17.679

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—“छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्र. 538-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—रामस्थान
(घ) क्षेत्रफल—0.440 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
108/1/क/1	0.089
164/1	0.061
108/1/क/3	0.089
164/2/ख	0.008
163/2	0.016
163/1	0.016
129	0.028
131/2	0.003

(1)	(2)
478	0.034
479	0.010
481	0.048
482/2	0.009
483/2	0.010
482/3	0.009
483/3	0.010

निजी खाता भूमि योग : 0.440

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सिजहटा-हिनौती-मलगांव-खम्हरिया-अबेर मार्ग लंबाई 32.20 कि. मी.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 539-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—बम्हौरी कला
(घ) क्षेत्रफल—0.206 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
509	0.069
514/1	0.053
514/2	0.024
514/3	0.036
514/4	0.024

निजी खाता भूमि योग : 0.206

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—सिजहटा-हिनौती-मलगांव-खम्हरिया-अबेर मार्ग लंबाई 32.20 कि. मी.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 25 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 5-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया
(ग) ग्राम—लमायचा
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.78 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
102	0.01
103	0.01
104	0.12
105	0.03
107	0.08
108	0.01
109	0.02
111/3	0.24
114	0.06
73/1	0.13
74/3	0.02
115	0.07
119	0.10
120	0.05
121	0.08
122	0.10
72	0.02
158	0.01
266	0.05
263	0.08
262	0.01
264	0.02

(1)	(2)
257	0.02
256	0.08
254/1, 254/2	0.01
255	0.03
335	0.03
336	0.07
334	0.01
338	0.07
337	0.05
157/1, 157/4	0.06
265	0.03
कुल प्रभावित रकबा	1.78

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना की लमायचा माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया
(ग) ग्राम—चितुवां
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.17 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
556	0.11
557	0.18
561	0.02

(1)	(2)
551	0.05
550	0.12
562	0.02
549	0.01
563	0.18
565	0.03
566	0.14
568	0.12
569	0.09
577	0.06
583	0.04
कुल प्रभावित रकबा	1.17

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत गंधारी माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया
(ग) ग्राम—फुलरा
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.31 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	प्रभावित होने वाला रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1	0.12
2	0.11

(1)	(2)	(1)	(2)
3	0.07	338	0.02
5	0.01	264	0.05
कुल प्रभावित रकबा	0.31	कुल प्रभावित रकबा	0.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना की फुलरा माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत मकोनी माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—दीवान की रूंद
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.70 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
335	0.09
340	0.02
339	0.09
334	0.13
329	0.02
336	0.01
269	0.09
265	0.07
266	0.01
342	0.10

प्र. क्र. 9-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—खैरी
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—3.21 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	प्रभावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
265/1, 265/2	0.01
100/1, 100/2	0.13
101	0.21
102/1, 102/2	0.03
105	0.05
104	0.14
257	0.01
107	0.16
90	0.05
155/1, 155/2, 155/3	0.15
240	0.16
226/1, 226/2	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
241	0.21	668	0.01
161	0.05	861	0.17
159	0.18	818	0.07
160	0.08	816	0.03
262	0.16	817	0.04
263	0.22	813	0.02
259	0.01	801	0.01
258	0.29	945	0.08
162	0.16	761	0.08
163	0.08	865	0.03
103/1, 103/2	0.13	1054	0.14
227/1, 227/2, 227/3	0.40	1040	0.04
156	0.13	1041	0.01
कुल रकबा योग :	<u>3.21</u>	1038	0.09
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—दतिया जिले के अन्तर्गत खर्घाट योजना के तहत मकोनी माइनर के निर्माण हेतु.		1042	0.03
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.		789	0.03
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.		702	0.01
		1057	0.10
		638	0.13
		687	0.01
		656	0.01
		658	0.04
प्र. क्र. 10-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		663/2	0.01
		670	0.06
		694	0.01
		705	0.02
		706	0.08
		760	0.01
		803	0.01
		946	0.25
		951	0.15
		963	0.01
अनुसूची		1036/1	
(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि		1036/2	0.01
(क) जिला—दतिया		1036/3	
(ख) तहसील—दतिया		1037	0.12
(ग) ग्राम—अगोरा		1055	0.01
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—4.39 हेक्टेयर.		1058	0.05
सर्वे	रकबा	762	0.06
क्रमांक	(हे. में)	768	0.11
(1)	(2)	657	0.03
664	0.02	701	0.02
665	0.07		
667	0.06		

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—दतिया जिले के
712	0.01	अन्तर्गत खर्चाट योजना के तहत अगोरा एवं लमायचा
711	0.01	माइनर के निर्माण हेतु.
732	0.01	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन
709	0.01	शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा
710	0.08	सकता है.
743	0.01	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई
741	0.05	नहर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
742	0.05	
763	0.01	प्र. क्र. 11-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस
767	0.01	बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
644	0.11	(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित
645	0.01	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन
637	0.02	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
685	0.08	अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा
686	0.07	यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन
671	0.04	के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
748	0.06	अनुसूची
749	0.06	(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि
755	0.05	(क) जिला—दतिया
756	0.03	(ख) तहसील—दतिया
757	0.07	(ग) ग्राम—राजापुर
758	0.04	(घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.93 हेक्टेयर.
659	0.03	सर्वे
790	0.07	क्रमांक
791	0.03	(1)
792	0.01	130
793	0.06	131
794	0.05	132
796	0.07	133
797	0.08	24
800	0.03	22
802	0.06	23
804	0.04	26
810	0.06	104
812	0.06	78
949	0.16	65
1056	0.04	64
1061	0.01	63
1062	0.07	105
1063	0.10	103
862	0.12	35
कुल रकबा	4.39	36
		रकबा
		(हे. में)
		(2)
		0.02
		0.15
		0.10
		0.03
		0.12
		0.06
		0.03
		0.07
		0.04
		0.01
		0.06
		0.01
		0.04
		0.06
		0.08
		0.09

(1)	(2)	(ग) ग्राम—पोड़ी	
37	0.08	(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.952 हे. नहर क्षेत्र.	
74	0.03	खसरा	रकबा
80	0.05	नम्बर	(हेक्टर में)
92	0.08	(1)	(2)
89	0.04	104	0.028
79	0.10	105/2	0.034
75	0.21	108/2	0.080
88	0.02	106	0.040
90	0.01	116/3	0.040
91	0.14	117/2	0.088
106	0.02	119/1/3	0.036
कुल प्रभावित रकबा	1.93	149/1	0.009
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—दतिया जिले के अन्तर्गत खर्गाघाट योजना के तहत मकोनी माइनर के निर्माण हेतु.		172/1	0.057
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.		150	0.030
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.		155/2	0.036
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		155/3	0.033
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		155/1	0.020
		171	0.066
		172/2	0.057
		173/1	0.004
		173/4	0.054
		174	0.004
		175/2/क	0.013
		176	0.117
		240/2	0.019
		194	0.015
		196	0.007
		284/1	0.064
		285	0.050
		289	0.040
		296/2	0.069
		296/1	0.069
		293/3	0.044
		293/2	0.044
		305	0.056
		303	0.072
		304/1	0.020
		304/2	0.020
		307/2	0.028
		308/1	0.036
		332/2	0.056
		309	0.036

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 26 सितम्बर 2017

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 8-अ-82-2016-17-3690.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(1) (2)

310 0.096

362/1/क 0.012

359 0.025

386 0.040

387/1 0.064

437/2 0.064

444/14 0.064

446 0.016

207/3 0.076

215/1/ख 0.048

221/2 0.016

273 0.057

276 0.052

278 0.051

516 0.020

519 0.056

520 0.048

524/3/क 0.040

450/3 0.096

448/1 0.044

451 0.008

454/2 0.064

461/1 0.140

462/2 0.044

524/2/क 0.024

524/4 0.032

524/1 0.032

524/5/क 0.032

योग . . 2.952

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ओदारी डायवर्सन योजना-II के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 9-अ-82-2016-17-3692.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30, सन्

2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—पतेरियाटोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.187 हे. नहर क्षेत्र

खसरा रकबा
नम्बर (हेक्टर में)
(1) (2)

22/4 0.117

22/5 0.032

22/7 0.148

22/12 0.103

43/2 0.048

867/5/ख 0.037

44 0.032

45/5/क 0.108

46/2 0.016

61/2 0.048

64/1 0.016

65/1 0.016

54 0.016

55/1 0.028

57/1 0.016

58/1 0.016

77/3 0.016

53/3 0.021

53/8 0.019

52 0.012

96 0.052

229/1 0.014

726/2 0.064

91 0.052

92/2 0.036

94 0.020

867/5/घ 0.094

867/5/ग 0.043

819/2 0.008

826/1 0.088

103 0.048

(1) (2)

104 0.022

105 0.025

250 0.024

382/1 0.016

378/1 0.040

379 0.032

380/1 0.012

384 0.032

380/2/1 0.040

402 0.019

394 0.017

396 0.017

393 0.028

367 0.056

247 0.020

231 0.004

246 0.009

248/1045 0.028

378/2 0.040

700 0.024

702/2 0.016

790 0.022

795/4 0.015

809 0.025

810/4/ख 0.096

896/2 0.089

829 0.012

820/2 0.023

योग . . 2.187

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ओदारी डायवर्सन योजना-II के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 12-अ-82-2016-17-3691.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन्

2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—मैरटोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.814 हे. नहर क्षेत्र.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

2/2

0.112

2/5

0.032

274/2

0.126

2/284

0.016

2/4

0.022

2/7

0.128

6/281

0.052

5

0.048

7/2

0.072

18

0.020

19

0.020

20

0.020

86

0.064

85/1

0.006

83

0.020

80

0.040

81

0.016

82

0.016

108

0.032

110

0.032

104/2

0.016

106

0.024

107/2

0.006

109/1

0.016

109/2

0.006

239/4

0.018

111

0.008

115/1

0.032

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—8.201 हे. डूब क्षेत्र	
		खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
112	0.009	4	0.386
113/2/क	0.032	5	0.813
116/2	0.028	6/548/1	0.146
174	0.024	6/549	0.049
175	0.030	20	0.024
213	0.072	21	0.255
217	0.032	22	0.101
218	0.020	27	0.042
215	0.020	23	0.125
239/3/ख	0.022	26	0.109
239/2	0.026	29	0.081
233	0.216	30	0.206
240	0.079	7	0.223
264	0.036	8	0.003
265	0.032	346	0.076
274/3/क	0.036	408	0.035
274/3/ख/2	0.080	17	0.160
योग . .	1.814	409	0.035
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ओदारी डायवर्सन योजना-II के निर्माण हेतु भू-अर्जन.		31	0.117
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.		32	0.501
<p>क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 13-अ-82-2016-17-3688.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—</p> <p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—शहडोल</p> <p>(ख) तहसील—जयसिंहनगर</p> <p>(ग) ग्राम—सरदपुर</p>		40/3	0.334
		324	0.138
		318	0.038
		319	0.033
		320	0.096
		497/1	0.190
		321/1	0.089
		321/2	0.089
		323	0.117
		323/1	0.117
		504	0.076
		496/1	0.194
		324/2	0.123

(1)	(2)
334/2	0.001
33	0.501
494	0.056
496/4	0.194
504	0.079
325/3	0.064
496/4	0.064
333	0.150
335	0.178
270/2	0.135
270/2	0.123
271	0.231
317	0.227
322	0.121
343/2	0.047
495/2	0.060
344	0.042
411	0.029
337/1	0.070
339	0.110
509/1	0.200
340	0.080
343/1	0.047
496/2	0.065
496/3	0.065
401/1	0.033
500	0.108

योग . . . 8.201

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—लुकामटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.669 हे. नहर क्षेत्र

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
55	0.477
174	0.192
योग . . .	0.669

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ओदारी डायवर्सन योजना-II के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ओदारी डायवर्सन योजना-II के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 14-अ-82-2016-17-3689.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 सितम्बर 2017

पत्र क्र. 574-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—सिलपरा
- (घ) क्षेत्रफल—0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
609	0.001	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति एवं परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर रीवा एवं उपखण्ड अधिकारी हुजूर, जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 575-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—पडरा-333
- (घ) क्षेत्रफल—0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
456/5	0.002	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति एवं परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर रीवा एवं उपखण्ड अधिकारी हुजूर, जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 577-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—पडरा-335
- (घ) क्षेत्रफल—0.133 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
106	0.133	शासकीय भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति एवं परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर रीवा एवं उपखण्ड अधिकारी हुजूर, जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 578-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया

जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—टेकुआ
(घ) क्षेत्रफल—0.009 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
117/3	0.009	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति एवं परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर रीवा एवं उपखण्ड अधिकारी हुजूर, जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2017

प्र. क्र. 05-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके लिये घोषणा किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—बक्सवाहा
(ग) ग्राम—बाजन
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.182 हेक्टेयर.

अर्जित की जा रही भूमि/ भूमि का खसरा क्र.	अर्जित रकबा/ क्षेत्रफल हे. में
(1)	(2)
549/4ई	0.006
545	0.049
599	0.008
544	0.102
546	0.006
543/1/2	0.042
543/2/1	0.042
543/2/2	0.042
543/4/2	0.042
550/1/ई	मकान
550/1/ई	मकान
549/6	मकान
549/6	मकान
549/6	मकान
549/1	मकान
541/1	मकान
541/1	मकान
549/6	मकान
549/1	मकान
541/1	मकान

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—राजमार्ग क्रमांक 48 हटा, फतेहपुर, रजपुरा, सिलपरी, बाजना, दरगुवां, तक के लिये दो लाईन रोड प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्र. E-6721-तीन-10-42/75.—एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि श्री सैफी दाउदी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अशोकनगर अपनी पदस्थापना के स्थान अशोकनगर के अतिरिक्त चंदेरी में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि श्री आनंद प्रिया राहुल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर, जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान, अशोकनगर के अतिरिक्त चंदेरी में प्रत्येक माह में 7 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपनी पदस्थापना के स्थान, अशोकनगर में ही बैठक करेंगे।

No. E-6721-III-10-42/75.—It is hereby directed that Shri Saifi Daudi, Additional Judge to the Court of the First Additional District and Sessions Judge, Ashoknagar shall also hold sitting at Chanderi in addition to his place of posting, Ashoknagar for the period of 15 days in a month for holding Link Court.

It is also directed that Shri Anand Priya Rahul, First Additional District and Sessions Judge, Ashoknagar, who has been directed to hold sitting at chanderi in addition to his place of posting, Ashoknagar for the period of 7 days in a month for holding Link Court shall hold his sitting forthwith at his place of posting Ashoknagar only.

माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.).

Jabalpur, the 22nd September 2017

No. 1167-Confdl.-2017-II-2-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting two days' Course on-Cyber Laws & Electronic Evidence for Judges of all cadre on 6th & 7th October, 2017 in the Academy. Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid programme.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
MOHD. FAHIM ANWAR, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्र. B-5152-दो-2-67-2015.—श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 30 सितम्बर 2017 तक, तेईस माह की अवधि हेतु सत्ताईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2017

क्र. 487-स्था. सैट-2017.—श्री ए. के. महोबिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (लेखा) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 03 से 07 अक्टूबर 2017 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों में प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाशकाल में श्री महोबिया को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. महोबिया को अस्थायी रूप से मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. महोबिया अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) के पद पर कार्य करते रहते। अतः अवधि दिनांक 03 से 07 अक्टूबर 2017 तक मूलभूत नियम 26(ब) (2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेंगी।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
चन्द्रेश कुमार खरे, रजिस्ट्रार (प्रशासन).

जबलपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2017

क्र. E-7055-दो-2-30-2014.—श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 23 से 24 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-7057-दो-3-34-2013.—श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 20 से 21 सितम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 19 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-7059-दो-3-420-80 भाग-सोलह.—श्री आलोक कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 119 दिवस (एक सौ उन्नीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्री आलोक कुमार वर्मा, : 01-09-1987
सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश, श्योपुर का
नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-07-2017
3. नियुक्ति दिनांक से : निरंक
दिनांक 09-03-1987 तक
कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 01-09-1987 से : 29 वर्ष, 10 माह,
सेवानिवृत्ति दिनांक तक 29 दिन.
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : लागू नहीं.
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : 29=14×15=210 दिन
अवधि हेतु समर्पण 1×7=7 दिन
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 217 दिन
समर्पण की पात्रता.
8. घटाईये:—सेवा के दौरान : 14 दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 203 दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-07-2017 को शेष अर्जित अवकाश 119 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 02 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. E-7080-दो-3-34-2013.—श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 26 से 27 सितम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-7082-दो-2-11-2014.—श्री व्ही. एल. झा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2017 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एल. झा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. एल. झा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-7084-दो-2-45-2013.—श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को दिनांक 12 से 15 सितम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को राजगढ़ (ब्यावरा) पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5105-दो-2-45-2016.—श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शाजापुर को दिनांक 6 से 9 सितम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अविनाश कुमार खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5107-दो-2-6-2015.—श्री शैलेन्द्र शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 23 मई से 03 जून 2017 तक, बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक), 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-5109-दो-2-41-2017.—श्री आर. बी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 25 से 27 सितम्बर 2017 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 सितम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. C-3962-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 08 सितम्बर 2017 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3968-दो-2-19ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को दिनांक 26 से 28 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्र. E-7141-दो-2-26-2014.—श्री एस. के. तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 03 से 06 अक्टूबर 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5136-दो-2-56-2014.—श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 04 से 15 जून 2017 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक), 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. C-3977-दो-2-40-2017.—श्रीमती शशीकला चंद्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 24 से 27 अगस्त 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 28 से 30 अगस्त 2017 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकला चंद्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकला चंद्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3979-दो-2-41-2014.—श्री श्यामकांत कुलकर्णी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 22 से 29 मई 2017 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक), 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. E-7143-दो-2-3-2017.—श्री जे. एस. कटारिया, प्रधान न्यायाधीश, शृंखला कुटुंब न्यायालय, मण्डलेश्वर को दिनांक 26 से 31 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. एस. कटारिया, प्रधान न्यायाधीश, शृंखला कुटुंब न्यायालय, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. एस. कटारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. 1104-गोपनीय-2017-IV-12-40-2005.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, एतद्वारा निम्न तालिका के स्तंभ दो में दर्शित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथासंशोधित) नियम, 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) (यथा संशोधित) नियम 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1) को उनके व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड संवर्ग में, सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरांत, स्तंभ तीन में दर्शित दिनांक से,

व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-1) द्वितीय ए.सी.पी. ग्रेड [Civil Judge (grade I) II ACP Grade] वेतनमान रुपये 39530—920—40450—1080—49090—1230—54010/- प्रदान करता है :—

सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम	व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-I) द्वितीय ए.सी.पी. ग्रेड [Civil Judge (grade I) II ACP Grade] वेतनमान रुपये 39530—920—40450—1080—49090—1230—54010/-प्रदान किये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सीनियर)	03 जुलाई 2010

टिप्पणी—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 450-गोपनीय-2017-IV-12-40-2005, दिनांक 09 मार्च 2017, जहां तक इसका संबंध श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सीनियर) को ए.सी.पी. ग्रेड प्रदान करने के संबंध में है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. 1126-गोपनीय-2017-IV-12-40-2005.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, एतद्वारा निम्न तालिका के स्तंभ दो में दर्शित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथा संशोधित) नियम, 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) (यथासंशोधित) नियम, 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), जिनका नाम नीचे दी गई सारणी में दर्शित है को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ तीन में दर्शित दिनांक से व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम ए. सी. पी. ग्रेड [Civil Judge (grade II) I ACP Grade] वेतनमान रुपये 33090—920—40450—1080—45850/- प्रदान करता है :—

सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम	व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Civil Judge (grade II) I ACP Grade] वेतनमान रुपये 33090—920—40450—1080—45850/- प्रदान किये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री लोकेन्द्र सिंह	01 जनवरी 2017

जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. 1131-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री मनोज कुमार लढ़िया, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. 1164-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी

के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1	श्री अखिलेश कुमार धाकड़ चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्र. A-2112-दो-2-41-2007.—श्री संजीव कालगांवकर, ईंचार्ज डायरेक्टर, एम. पी. एस. जे. ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 23 सितम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 सितम्बर 2017 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कालगांवकर, ईंचार्ज डायरेक्टर, एम. पी. एस. जे. ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कालगांवकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ईंचार्ज डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2017

क्र. E-7232-दो-2-48-2017.—श्री जी. एस. दुबे, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 7 से 15 सितम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. दुबे, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2017

शुद्धि-पत्र

क्र. E-6441-तीन-10-40-78-संशोधन-आठ.—मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक सी-4666, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 के अंग्रेजी संस्करण (पृष्ठ क्रमांक 4872) के अनुक्रमांक 50, सिविल जिला मण्डलेश्वर के कसरावद के सम्मुख कॉलम नं. 8 में सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय की संख्या 1 के स्थान पर 2 प्रकाशित हो गई है. जबकि वास्तविक रूप से कसरावद में सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय की संख्या 1 है.

अतएव, कसरावद में सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय की संख्या 2 के स्थान पर 1 पढ़ा जावे.

विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (जिला स्थापना).

जबलपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्र. B-4985.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित सहायक ग्रेड एक की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान पुरनीकृत वेतनबैंड रु. 9,300—34800+ग्रेड पे रु. 4200/- में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम नं. (3) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर 15 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा.

क्र. (1)	नाम एवं स्थान (2)	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (3)	टीप (4)
1	श्रीमती साधना वर्मा, सहायक ग्रेड एक, मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
2	श्री अनिल कुमार गुजराती, सहायक ग्रेड एक, मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
3	श्री आर. सी. पारे, सहायक ग्रेड एक, खण्डपीठ इन्दौर.	खण्डपीठ इन्दौर	रिक्त पद पर
4	श्री जयराम कोहली, सहायक ग्रेड एक, खण्डपीठ इन्दौर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर
5	श्री डी. के. व्यास, सहायक ग्रेड एक, खण्डपीठ इन्दौर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर
6	श्रीमती अनुराधा कोमेरवार, सहायक ग्रेड एक, मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
7	श्री पी. के. एस. ठाकुर, सहायक ग्रेड एक, मुख्यपीठ जबलपुर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर
8	श्री अनंत कुमार कछवाहा, सहायक ग्रेड एक, मुख्यपीठ जबलपुर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर
9	श्रीमती शशि निगम, सहायक ग्रेड एक, मुख्यपीठ जबलपुर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर

जबलपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. 1169-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.	भिण्ड	इंदौर	प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की हैसियत से श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी के दिनांक 30-9-2017 को सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.

जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2017

क्र. B-5212.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित सहायक ग्रंथपाल की पदोन्नति ग्रंथपाल के रिक्त पद पर वेतनमान पुरनीक्षित वेतनबैंड रु. 15600—39100+ग्रेड पे रु. 5400/- में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम नं. (3) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर 15 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा.

क्र. (1)	नाम एवं स्थान (2)	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (3)	टीप (4)
1	श्री पवन कुमार जैन, सहायक ग्रंथपाल, मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
2	श्री गजानंद चौहान, सहायक ग्रंथपाल, खण्डपीठ इन्दौर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur the 5th September 2017

No. A-2010-III-6-2-2016.—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh specially empowers the Judicial Magistrates of the First Class, named in the column (2) of the table below and posted at places mentioned in column (3) thereof for trial of cases as per the provisions of Section 260 of the Code summarily :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Judicial Magistrates of the First Class (2)	Place (3)
1	Shri Dashrath Singh Bhide, Judicial Magistrate First Class	Ashta (District-Sehore)
2	Smt. Swati Nivesh Jaiswal, Judicial Magistrate First Class	Ashta (District-Sehore)
3	Shri Dharam Kumar, Judicial Magistrate First Class	Ashta (District-Sehore)
4	Shri Adil Ahmad Khan, Judicial Magistrate First Class	Seoni
5	Shri Rupendra Singh Madavi, Judicial Magistrate First Class	Seoni

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, O.S.D. (D. E.).

जबलपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. 1101-गोपनीय-2017-IV-12-40-2005.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, एतद्वारा निम्न तालिका के स्तंभ दो में दर्शित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को स्तम्भ तीन में दर्शित दिनांक से, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथा संशोधित) नियम 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति

लाभों का पुनरीक्षण) (यथा संशोधित) नियम 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत उनकी वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1), संवर्ग में, सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए. सी. जे. एम./सी.जे.एम. प्रथम ए. सी. पी. ग्रेड [Senior Civil Judge (grade II) ACJM/CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690—1080—49090—1230—56470/- प्रदान करता है :-

सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान एवं जिले का नाम	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए. सी. जे. एम./सी.जे.एम. प्रथम ए. सी. पी. ग्रेड [Senior Civil Judge (grade II) ACJM/CJM IACP Grade] वेतनमान रुपये 43690—1080—49090—1230— 56470/ प्रदान किये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री शशिकांत वर्मा	मुलताई (बैतूल)	1 जनवरी 2017
2	श्री प्रकाश कसेर	सिहोरा (जबलपुर)	1 जनवरी 2017
3	श्री आदेश कुमार मालवीय	सतना	14 दिसम्बर 2014
4	श्री कमलेश सनोड़िया	बैतूल	7 दिसम्बर 2014
5	श्री दिनेश कुमार शर्मा	लौंडी (छतरपुर)	16 दिसम्बर 2014
6	श्री संजय चौहान	बंडा (सागर)	8 दिसम्बर 2014
7	श्रीमति संतोषी वासनिक	सिवनी	1 जनवरी 2017
8	डॉ. उमाशंकर कुम्हार	जबलपुर	1 जनवरी 2017
9	श्री रामप्रकाश कतरोलिया	टीकमगढ़	7 मई 2017
10	श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह	सीहोरा	4 मई 2017
11	श्री विवेक सक्सेना	जबलपुर	7 मई 2017
12	श्री आशुतोष शुक्ला	उज्जैन	5 मई 2017
13	कंचन सक्सेना	लहार	5 मई 2017

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्वारा उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में दर्शित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी में से सरल क्र. 11 पर दर्शित अधिकारी को छोड़कर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है.

जबलपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. 1124-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530—920—40,450—1080—49,090—1230—54,010/- में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री लोकेन्द्र सिंह	उमरिया	ब्यौहारी	शहडोल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ब्यौहारी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ब्यौहारी, जिला शहडोल की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्र. 1137-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री सुरेश सिंह	अमरवाड़ा	भोपाल	भोपाल	उन्नीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
2	श्री बलराम यादव	रायसेन	बेगमगंज	रायसेन	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
3	श्री भारत सिंह रावत	छतरपुर	लौंडी	छतरपुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2017

क्र. 1143-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप व्यवहार न्यायाधीश वर्ग की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530—920—40,450—1080—49,090—1230—54,010/- में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती बबीता होरा शर्मा	बैदुन (सिंगरौली)	बैदुन (सिंगरौली)	सिंगरौली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2.	श्री लोकेन्द्र सिंह	उमरिया	उमरिया	उमरिया	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

टिप्पणी—(1) आदेश क्रमांक 1079-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017, (भाग-बी), दिनांक 31 अगस्त 2017, जहां तक इसका संबंध श्रीमती बबीता होरा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बैदुन, जिला सिंगरौली का, बैदुन जिला सिंगरौली से उदयपुरा, जिला रायसेन स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) आदेश क्रमांक 1124-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017, (भाग-बी), दिनांक 8 सितम्बर 2017, जहां तक इसका संबंध श्री लोकेन्द्र सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उमरिया का उमरिया से ब्यूहारी, जिला शहडोल स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. 1144-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डॉ. आरिफ खान पटेल	खण्डवा	हरसूद	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
2	श्री निशांत मिश्रा	श्योपुर	ब्यौहारी	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी—श्री निशांत मिश्रा का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन पर किया गया है. अतः निर्देशित किया जाता है कि श्री निशांत मिश्रा को खण्डवा से ब्यौहारी हेतु स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता होगी, उनके पूर्व के स्थानांतरण खण्डवा से श्योपुर हेतु स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्र. बी-4901-तीन-10-40/78-सात.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी की गई अधिसूचना दिनांक 18-11-2016 में संशोधन करते हुए, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-11-4-2001-सात-6, दिनांक 26 जून, 2003 एवं क्रमांक एफ-11-2-2009-सात-शा.-6, दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 द्वारा नगर महु तथा नगर लौडी का परिवर्तित नाम, क्रमशः डॉ. अम्बेडकर नगर एवं लवकुश नगर समाविष्ट किया जाता है एवं तदनुसार उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक 10, छतरपुर एवं अनुक्रमांक 22, इन्दौर सिविल जिलों से संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है. अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिलों का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		स्थान	संख्या	स्थान	संख्या	स्थान	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	छतरपुर	छतरपुर	6	छतरपुर	3	छतरपुर	4
		नौगांव	2	नौगांव	2	नौगांव	3
		बिजावर	2	बिजावर	2	बिजावर	3
		लवकुश नगर	1	लवकुश नगर	2	लवकुश नगर	4
						राजनगर	2
						बड़ा मलहरा	2
22	इन्दौर	इन्दौर	35	इन्दौर	50	इन्दौर	64
		डॉ. अम्बेडकर नगर	5	डॉ. अम्बेडकर नगर	5	डॉ. अम्बेडकर नगर	8
		सांवेर	1	सांवेर	2	सांवेर	2
		देपालपुर	1	देपालपुर	3	देपालपुर	2
						हातोद	1

No. B-4901-III-10-40/78-VII.—The names of towns Mhow and Laudi, changed by the Government of Madhya Pradesh vide Notification No. F. 11-4-2001-VII-6, dated 26th June, 2003 and No. F. 11-2-2009-VII-6, dated 28th October, 2010 to Dr. Ambedkar Nagar and Lavkush Nagar respectively are incorporated by the High Court in the earlier notification issued in exercise of the powers conferred by sub-Section 1 of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), dated 18-11-2016 by amendment therein and accordingly the entries relating to the Civil Districts 10, Chhatarpur and 22, Indore are partially modified, Namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Chhatarpur	Chhatarpur	6	Chhatarpur	3	Chhatarpur	4
		Nowgaon	2	Nowgaon	2	Nawgaon	3
		Bijawar	2	Bijawar	2	Bijawar	3
		Lavkush	1	Lavkush	2	Lavkush	4
		Nagar		Nagar		Nagar	
						Rajnagar	2
						Bada Malhara	2
22	Indore	Indore	35	Indore	50	Indore	64
		Dr. Ambedkar Nagar	5	Dr. Ambedkar Nagar	5	Dr. Ambedkar Nagar	8
		Sanwer	1	Sanwer	2	Sanwer	2
		Depalpur	1	Depalpur	3	Depalpur	2
						Hatod	1

क्र. बी-4903-तीन-10-40/78.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निर्देश देता है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय, साधारणतः उक्त सारणी के कॉलम (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक करेंगे अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सत्र न्यायालय	सामान्यतः बैठने का स्थान
(1)	(2)	(3)
1.	अलीराजपुर	अलीराजपुर एवं जोबट
2.	अनूपपुर	अनूपपुर, कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम
3.	अशोकनगर	अशोकनगर, मुंगावली एवं चंदेरी
4.	बालाघाट	बालाघाट, वारासिवनी, बैहर एवं कटंगी

(1)	(2)	(3)
5.	बड़वानी	बड़वानी एवं सेंधवा
6.	बैतूल	बैतूल, मुलताई एवं भैंसदेही
7.	भिण्ड	भिण्ड, लहार, गोहद एवं मेहगांव
8.	भोपाल	भोपाल एवं बैरसिया
9.	बुरहानपुर	बुरहानपुर
10.	छतरपुर	छतरपुर, नौगांव, बिजावर एवं लवकुश नगर
11.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा, अमरवाड़ा, साँसर एवं परासिया
12.	दमोह	दमोह एवं हटा
13.	दतिया	दतिया, सेवड़ा एवं भाण्डेर
14.	देवास	देवास, कन्नौद, सोनकच्छ, बागली, खातेगांव एवं टोंकखुर्द
15.	धार	धार, कुक्षी, मनावर, सरदारपुर, धरमपुरी एवं बदनावर
16.	डिंडोरी	डिंडोरी
17.	पूर्व निमाड़ (खण्डवा)	खण्डवा
18.	गुना	गुना एवं चाचौड़ा
19.	ग्वालियर	ग्वालियर, डबरा एवं भितरवार
20.	हरदा	हरदा
21.	होशंगाबाद	होशंगाबाद, सोहागपुर, पिपरिया एवं इटारसी
22.	इन्दौर	इन्दौर, डॉ. अम्बेडकर नगर, सांवेर एवं देपालपुर
23.	जबलपुर	जबलपुर, सिहोरा एवं पाटन
24.	झाबुआ	झाबुआ एवं पेटलावद
25.	कटनी	कटनी
26.	मण्डला	मण्डला, निवास एवं नैनपुर
27.	मंदसौर	मंदसौर, गरोठ एवं भानपुरा
28.	मुरैना	मुरैना, सबलगढ़, जौरा एवं अम्बाह
29.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर एवं गाडरवारा
30.	नीमच	नीमच, मनासा एवं जावद
31.	पन्ना	पन्ना एवं पवई
32.	रायसेन	रायसेन, बेगमगंज, बरेली एवं गौहरगंज
33.	राजगढ़	राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ एवं सारंगपुर
34.	रतलाम	रतलाम, जावरा एवं आलोट
35.	रीवा	रीवा, मऊगंज, त्योंथर एवं सिरमौर
36.	सागर	सागर, खुरई, रहली, बण्डा, बीना एवं देवरी
37.	सतना	सतना, मैहर, नागौद एवं अमरपाटन

(1)	(2)	(3)
38.	सीहोर	सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज एवं बुधनी
39.	सिवनी	सिवनी एवं लखनादौन
40.	शहडोल	शहडोल, ब्यौहारी, बुढ़ार एवं जयसिंहनगर
41.	शाजापुर	शाजापुर, शुजालपुर, आगर एवं सुसनेर
42.	श्योपुर	श्योपुर एवं विजयपुर
43.	शिवपुरी	शिवपुरी, करेरा एवं पिछोर
44.	सीधी	सीधी एवं मझौली
45.	सिंगरौली	बैढ़न एवं देवसर
46.	टीकमगढ़	टीकमगढ़, जतारा एवं निवाड़ी
47.	उज्जैन	उज्जैन, खाचरौद, महिदपुर, बड़नगर, तराना एवं नागदा
48.	उमरिया	उमरिया
49.	विदिशा	विदिशा, बासौदा, सिरोंज, कुरवाई एवं लटेरी
50.	पश्चिम निमाड़ (मण्डलेश्वर)	मण्डलेश्वर, खरगोन, बड़वाह एवं भीकनगांव

No. B-4903-III-10-40/78.—In exercise of the powers conferred by sub-section 6 of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the High Court of Madhya Pradesh directs that the Court of Sessions specified in column (2) of the table below shall ordinarily hold its sitting at the place or places specified against its name in column (3) of the said table, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Court of Sessions (2)	Place, where the Courts shall ordinarily hold their sitting (3)
1.	Alirajpur	Alirajpur and Jobat
2.	Anuppur	Anuppur, Kotma and Rajendragram
3.	Ashoknagar	Ashoknagar, Mungaoli and chanderi
4.	Balaghat	Balaghat, Waraseoni, Baihar and Katangi
5.	Barwani	Barwani and Sendhwa
6.	Betul	Betul Multai and Bhainsdehi
7.	Bhind	Bhind, Lahar, Gohad and Mehgaon
8.	Bhopal	Bhopal and Bairasia
9.	Burhanpur	Burhanpur
10.	Chhatarpur	Chhatarpur, Nowgaon, Bijawar and Lavkush Nagar
11.	Chhindwara	Chhindwara, Amarwara, Saunsar and Parasia
12.	Damoh	Damoh and Hatta
13.	Datia	Datia, Seodha and Bhandar
14.	Dewas	Dewas, Kannod, Sonkachchha, Bagli, Khategaon and Tonkkhurd
15.	Dhar	Dhar, Kukshi, Manawar, Sardarpur, Dharampuri and Badnawar

(1)	(2)	(3)
16.	Dindori	Dindori
17.	East Nimar (Khandwa)	Khandwa
18.	Guna	Guna and Chachoda
19.	Gwalior	Gwalior, Dabra and Bhitwar
20.	Harda	Harda
21.	Hoshangabad	Hoshangabad, Sohagpur, Pipariya and Itarsi
22.	Indore	Indore, Dr. Ambedkar Nagar, Sanwer and Depalpur
23.	Jabalpur	Jabalpur, Sihora and Patan
24.	Jhabua	Jhabua and Petlawad
25.	Katni	Katni
26.	Mandla	Madla, Niwas and Nainpur
27.	Mandsaur	Mandsaur, Garoth and Bhanpura
28.	Morena	Morena, Sabalgarh, Jora and Ambah
29.	Narsinghpur	Narsinghpur and Gadwar
30.	Neemuch	Neemuch, manasa and Jawad
31.	Panna	Panna and Pawai
32.	Raisen	Raisen, Begumganj, Bareilly and Gouharganj
33.	Rajgarh	Rajgarh, Biaora, Narsinghgarh and Sarangpur
34.	Ratlam	Ratlam, Jaora and Alote
35.	Rewa	Rewa, Mauganj, Teonthar and Sirmour
36.	Sagar	Sagar, Khurai, Rehli, Banda, Bina and Deori
37.	Satna	Satna, Maihar, Nagod and Amarpatan
38.	Sehore	Sehore, Ashta, Nasrullaganj and Budhni
39.	Seoni	Seoni and Lakhnadon
40.	Shahdol	Shahdol, Beohari, Budhar and Jaisinghnagar
41.	Shajapur	Shajapur, Shujalpur, Agar and Susner
42.	Sheopur	Sheopur and Vijaypur
43.	Shivpuri	Shivpuri, Karera and Pichhore
44.	Sidhi	Sidhi and Majholi
45.	Singrauli	Waidhan and Deosar
46.	Tikamgarh	Tikamgarh, Jataara and Niwari
47.	Ujjain	Ujjain, Khachrod, Mahidpur, Badnagar, Tarana and Nagda
48.	Urmari	Urmari
49.	Vidisha	Vidisha, Basoda, Sironj, Kurwai and Lateri
50.	West Nimar (Mandleshwar)	Mandleshwar, Khargone, Barwaha and Bhikangaon

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.).